



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15—सितम्बर 21, 2007 (भाद्रपद 24, 1929)

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 15—SEPTEMBER 21, 2007 (BHADRA 24, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2007

रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (सेना)

सं. 462, दिनांक 23 अगस्त 2007—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

सेना डाक सेवा

अस्थाई कमीशन

सेना डाक सेवा कोर के निम्नलिखित जूनियर कमीशन अधिकारियों/अधिपत्र अधिकारियों को सेना अनुदेश 29/85 के अन्तर्गत उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से प्रभावी लेफ्टीनेन्ट के पद पर अस्थाई कमीशन (परिविक्षमान) प्रदान किया जाता है उनका (परिविक्षमान) अस्थाई कमीशन परिविक्षा अवधि पूरी होने के बाद संस्पुष्ट किया जाता है:—

नायब सूबेदार के पी प्रदीप जेसी-834522के, (अब टी सी-31577एफ, लेफ्टीनेन्ट), 18 जुलाई 2006

नायब सूबेदार अशोक हजेरी जेसी-834439एफ, (अब टी सी-31578के, लेफ्टीनेन्ट), 18 जुलाई 2006

नायब सूबेदार महावीर सिंह जेसी-834523एफ, (अब टी सी-31579एफ, लेफ्टीनेन्ट), 18 जुलाई 2006

सूबेदार वी सुधाकरन नायर जेसी-834176वाई, (अब टी सी-31580एफ, लेफ्टीनेन्ट), 18 जुलाई 2006

प्रदीप कुमार

अवर सचिव

सं. 463, दिनांक 24 अगस्त 2007—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर

पेड कार्यकारी सूबेदार कशमीर सिंह (जेसी-826126वाई), 01 नवम्बर 2006

पेड कार्यकारी सूबेदार अशोक कुमार पती (जेसी-826127एफ), 01 दिसम्बर 2006

पेड कार्यकारी सूबेदार धनबीर गुरुंग (जेसी-826128के), 01 दिसम्बर 2006

पेड कार्यकारी सूबेदार शेर बहादुर थापा (जेसी-826129एम), 01 दिसम्बर 2006

पेड कार्यकारी सूबेदार विजय सिंह (जेसी-826130एफ), 01 फरवरी 2007

पेड कार्यकारी सूबेदार परशुराम देसाई (जेसी-826131के), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

पेड कार्यकारी सूबेदार बेअन्त सिंह (जेसी-826132एम), 01 अप्रैल 2007

\*वरीयता दिनांक

बी. एच. एम. जगदीश प्रसाद (सं. 2982409एन अब जेसी-826178ए), 01 दिसम्बर 2006

बी. एच. एम. डी. एस. भंडारी (सं. 1473130पी अब जेसी-826179एक्स), 01 दिसम्बर 2006

बी. एच. एम. कुलदीप सिंह (सं. 13746820एक्स अब जेसी-826180एम), 01 दिसम्बर 2006

बी. एच. एम. प्रताप सिंह (सं. 2983729पी अब जेसी-826181पी), 01 फरवरी 2007

बी. एच. एम. हरी सिंह (सं. 3984544डब्ल्यू अब जेसी-826182एक्स), 01 मार्च 2007

बी. एच. एम. गैरसिया ललित मोहन (सं. 14909605पी अब जेसी-826183ए), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

\*वरीयता दिनांक

प्रीत पाल सिंह  
प्रवर सचिव

सं. 464, दिनांक 23 अगस्त 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-178992एच), 01 जून 2007

सूबेदार सी रामानाथन (टीजे-2806वाई), 01 जुलाई 2007

सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-173213एल), 01 जुलाई 2007

सूबेदार परस राम, एस एम (जेसी-188608के), 01 जुलाई 2007

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-841026एल), 01 जून 2007

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार थापा (जेसी-218580एम), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार बंशी लाल (जेसी-194694डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार रोहतास सिंह (जेसी-468195एच), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-661084एम), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-468199वाई), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-238361एम), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार बुद्धी चन्द सूरज (जेसी-578743वाई), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-578077एक्स), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार मन बहादुर पुन (जेसी-612125एफ), 01 जुलाई 2007

स्थाई सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) पी कन्डास्वामी (जेसी-841483वाई), 01 जुलाई 2007

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

सं. 465, दिनांक 23 अगस्त 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना विभाग

इन्फैन्ट्री

सिख लाइट इन्फैन्ट्री

सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-508771एम), 01 जून 2006

नायब सूबेदार गोपाल कृष्ण सिंह (जेसी-509072एन), 16 जुलाई 2006

नायब सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-509131पी), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार हरदयाल सिंह (जेसी-508884पी), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार रोशन सिंह (जेसी-508915के), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार जगराज सिंह (जेसी-509132एक्स), 10 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-508916एम), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-508949एक्स), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार देशराज सिंह सोडी (जेसी-508950एम), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-509065एक्स), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-509069एन), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार बिकर सिंह (जेसी-509067एच), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-509036एच), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-509080एम), 25 दिसम्बर 2006  
 नायब सूबेदार गुरजीत सिंह (जेसी-509236वाई), 01 जनवरी 2007  
 नायब सूबेदार बलजिन्दर सिंह (जेसी-509237एफ), 01 जनवरी 2007  
 नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-508981एम), 01 जनवरी 2007  
 नायब सूबेदार रोशन सिंह (जेसी-508985एच), 09 जनवरी 2007  
 नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-509058एफ), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-509052ए), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार करमजीत सिंह (जेसी-509194एक्स), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-509156एफ), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-509146एक्स), 06 फरवरी 2007

#### सिख रेजिमेन्ट

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मुख्तयार सिंह (जेसी-498426एच), 08 मार्च 2007  
 सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007

##### सूबेदार मेजर धर्म शिक्षक के रैंक में

सूबेदार धर्म शिक्षक हरभजन सिंह (जेसी-117713डब्ल्यू), 15 फरवरी 2007

सूबेदार मेजर धर्म शिक्षक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

##### सूबेदार मेजर संगीतज्ञ के रैंक में

सूबेदार संगीतज्ञ लाल सिंह (जेसी-499184एक्स), 01 मार्च 2007  
 सूबेदार मेजर संगीतज्ञ के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुखमिन्दर सिंह (जेसी-499051एफ), 08 जनवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 फरवरी 2006  
 नायब सूबेदार मुख्तयार सिंह (जेसी-499249ए), 12 फरवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अक्टूबर 2006  
 नायब सूबेदार शरदूल सिंह (जेसी-499391के), 26 जनवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2006  
 नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-499396एच), 26 जनवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-499273डब्ल्यू), 12 फरवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जेसी-499310वाई), 15 जनवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार निशान सिंह (जेसी-499313एम), 15 जनवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-499392एम), 15 फरवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-499361एम), 15 फरवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-499437एफ), 02 फरवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-499315एक्स), 08 फरवरी 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-499317एच), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-499389एम), 22 मार्च 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार बलजिन्दर सिंह (जेसी-499358एम), 03 मार्च 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार गुरभेज सिंह (जेसी-499331पी), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-499332एक्स), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-499339एफ), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-499364ए), 13 मार्च 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-499533डब्ल्यू), 11 मार्च 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-499509वाई), 11 मार्च 2007  
 सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक कलमन्दर सिंह (जेसी-499455के), 08 फरवरी 2007

सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3385444ए अब जेसी-499808वाई), 20 मार्च 2007

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 3387926एन अब जेसी-499809एफ), 21 मार्च 2007

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 3387612एम अब जेसी-499810डब्ल्यू), 21 मार्च 2007

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007

हवलदार शिव देव सिंह (सं. 3386093एच अब जेसी-499811वाई), 20 मार्च 2007

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007

हवलदार बलविंदर सिंह (सं. 3387472एल अब जेसी-499812एफ), 15 मार्च 2007

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007

हवलदार मान सिंह (सं. 3387465पी अब जेसी-499813के), 05 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007

हवलदार लखविंदर सिंह (सं. 3387434पी अब जेसी-499814एम), 02 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007

हवलदार मखन सिंह (सं. 3386668एम अब जेसी-499815पी), 01 अप्रैल 2007

हवलदार नरिंदर सिंह (सं. 3386706एक्स अब जेसी-499816एक्स), 01 अप्रैल 2007

हवलदार यादवेंदर सिंह (सं. 3387858एल अब जेसी-499817ए), 01 अप्रैल 2007

हवलदार बलविंदर सिंह (सं. 3387841एक्स अब जेसी-499818एच), 01 अप्रैल 2007

9 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कमल बहादुर अधिकारी (जेसी-629392वाई), 10 अक्टूबर 2006/01 जून 2006 \*

सूबेदार/लिपिक मुख राम यादव (जेसी-629262डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

सूबेदार याक बहादुर थापा (जेसी-629387एन), 13 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006 \*

सूबेदार दिल बहादुर खत्री (जेसी-629377के), 01 नवम्बर 2006

सूबेदार दान बहादुर भुजेल (जेसी-629383एक्स), 01 जनवरी 2007

सूबेदार/आर टी शोसकान्ता शर्मा घिमिरे (जेसी-122072वाई), 01 फरवरी 2007

\*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।

दि राजपूत रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर लिपिक के रूप में

सूबेदार मेजर लिपिक राम बक्श सिंह (जेसी-478465ए), 01 फरवरी 2007

सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर दिग विजय सिंह (जेसी-478647एन), 01 मार्च 2007

सूबेदार मेजर भोले बहादुर सिंह (जेसी-478947पी), 15 मार्च 2007

सूबेदार मेजर महीपाल सिंह (जेसी-478829एफ), 17 अप्रैल 2007

सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार लिपिक तारा चन्द (जेसी-479317एफ), 01 फरवरी 2007

सूबेदार के रूप में

सूबेदार राजेश्वर सिंह (जेसी-479368पी), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार हम्ब प्रसाद मिश्रा (जेसी-479336एम), 24 सितम्बर 2006

सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-479275ए), 01 अक्टूबर 2006

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-479389एल), 01 अक्टूबर 2006

सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-479445वाई), 01 अक्टूबर 2006

सूबेदार श्री निवास चतुर्वेदी (जेसी-479491एन), 01 अक्टूबर 2006

सूबेदार राम प्रकाश (जेसी-479323पी), 01 नवम्बर 2006

सूबेदार सुआ लाल (जेसी-479515एल), 01 नवम्बर 2006

सूबेदार ओम पाल शर्मा (जेसी-479519डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2006  
 सूबेदार शेर सिंह (जेसी-479540एल), 01 नवम्बर 2006  
 सूबेदार प्यार सिंह योगी (जेसी-479343एच), 01 दिसम्बर 2006  
 सूबेदार बीर पाल (जेसी-479541एम), 01 दिसम्बर 2006  
 सूबेदार हरि शंकर सिंह चौहान (जेसी-479470एक्स), 01 दिसम्बर 2006

सूबेदार राम सिंह गुर्जर (जेसी-479187एच), 10 दिसम्बर 2006  
 सूबेदार बलविन्द्र सिंह (जेसी-479361एल), 10 दिसम्बर 2006  
 सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-479365एफ), 10 दिसम्बर 2006  
 सूबेदार धर्म पाल (जेसी-479555एम), 30 दिसम्बर 2006  
 सूबेदार त्रिभुवन नारायण सिंह (जेसी-479270एफ), 01 जनवरी 2007  
 सूबेदार मित्रपाल सिंह (जेसी-479271के), 01 जनवरी 2007  
 सूबेदार शमशुद्दीन अली खान (जेसी-479339ए), 01 जनवरी 2007  
 सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-479462वाई), 01 जनवरी 2007  
 सूबेदार प्रहलाद सिंह (जेसी-479508डब्ल्यू), 01 जनवरी 2007  
 सूबेदार करम सिंह (जेसी-479569एन), 01 जनवरी 2007  
 सूबेदार उमेश सिंह सोलंकी (जेसी-479574वाई), 01 जनवरी 2007  
 सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-479559के), 08 जनवरी 2007  
 सूबेदार मोहम्मद शकील नकवी (जेसी-479372एक्स), 18 जनवरी 2007

सूबेदार राम चन्द्र सिंह रजावत (जेसी-479592एफ), 18 जनवरी 2007  
 सूबेदार मन मोहन सिंह (जेसी-479273पी), 01 फरवरी 2007  
 सूबेदार यस पाल सिंह (जेसी-479319एम), 01 फरवरी 2007  
 सूबेदार जगराम सिंह (जेसी-479523एल), 01 फरवरी 2007  
 सूबेदार तेज पाल सिंह (जेसी-479535ए), 01 फरवरी 2007  
 सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-479536एच), 01 फरवरी 2007  
 सूबेदार दिल बाघ सिंह (जेसी-479572एन), 01 फरवरी 2007  
 सूबेदार रियासत अली (जेसी-479320एफ), 01 मार्च 2007  
 सूबेदार नरिवन (जेसी-479344एल), 01 मार्च 2007  
 सूबेदार धनेश राज (जेसी-479265डब्ल्यू), 10 मार्च 2007  
 सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-479324एक्स), 01 अप्रैल 2007  
 सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-479370एम), 01 अप्रैल 2007

गढ़वाल राइफलस

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दरम्यान सिंह (जेसी-529089एच), 01 जनवरी 2007

सूबेदार हरीश चन्द (जेसी-528846ए), 01 मार्च 2007  
 सूबेदार विजेन्द्र सिंह, सेना मैडल (जेसी-529001एन), 01 मार्च 2007  
 सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में  
 सूबेदार (लिपिक) मनबर सिंह (जेसी-528685एच), 02 फरवरी 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बाग सिंह (जेसी-529662एन), 01 जून 2006  
 नायब सूबेदार कलम सिंह (जेसी-529661एल), 01 सितम्बर 2006  
 नायब सूबेदार आशीष कुमार (जेसी-529460एम), 13 अक्टूबर 2006  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-529640पी), 01 नवम्बर 2006  
 नायब सूबेदार परवेन्द्र सिंह (जेसी-529663डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2006  
 नायब सूबेदार उमेश चन्द्र (जेसी-529742एल), 01 जनवरी 2007  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-529728वाई), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार हरि सिंह नेगी (जेसी-529774एन), 01 जनवरी 2007  
 नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-529773एल), 01 जनवरी 2007  
 नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जेसी-529723ए), 01 जनवरी 2007  
 नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-529724एच), 01 जनवरी 2007  
 नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-529348ए), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-529349एच), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार नैन सिंह (जेसी-529461पी), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार पुष्कर सिंह (जेसी-529677डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-529653एम), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह (जेसी-529768ए), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार पुष्कर पाल सिंह (जेसी-529751एम), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-529752पी), 01 फरवरी 2007  
 नायब सूबेदार मथुरा प्रसाद (जेसी-529552वाई), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार खुशाल सिंह (जेसी-529583वाई), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-529685पी), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार मन मोहन सिंह (जेसी-529729एफ), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार महेश चन्द्र (जेसी-529690ए), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-529691एच), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार धीरेन्द्र सिंह (जेसी-529697के), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-529707एच), 01 मार्च 2007  
 नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-529746एफ), 01 मार्च 2007

## सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) ओम प्रकाश बर्वाल (जेसी-529582डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) ताजबेर सिंह (जेसी-529590पी), 01 मार्च  
2007

## जाट रेजीमेंट

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बच्चू सिंह (जेसी-489218एम), 01 जून 2005 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सत्य नारायण (जेसी-489609एक्स), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार धर्म पाल (जेसी-489626एक्स), 01 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
23 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार गोरखा राम (जेसी-489479ए), 24 सितम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-489471एन), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रघवीर सिंह (जेसी-489411वाई), 16 फरवरी 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार भीम सिंह गुर्जर (जेसी-489426एफ), 29 मार्च 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-489396पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार शिव राम सिंह (जेसी-489181डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-489182वाई), 07 मार्च 2006

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम सिंह सिद्धू (जेसी-489363के), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार घामण्डी लाल (जेसी-489406एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राजा (जेसी-489443एफ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सतरूप सिंह (जेसी-489483एच), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार समुन्दर सिंह (जेसी-489493एम), 23 नवम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजबीर (जेसी-489175एच), 06 मार्च 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
26 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सूबेदार धर्म पाल (जेसी-489327वाई), 04 मार्च 2006

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
26 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सत्यावान (जेसी-489184के), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार इन्दर सिंह (जेसी-489290एच), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-489312डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार पाले राम (जेसी-489445एम), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार विद्याधर सिंह (जेसी-489455डब्ल्यू), 22 मई 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जनकबीर सिंह (जेसी-489556के), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम धारी (जेसी-489564एच), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-489463पी), 07 मार्च 2006

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-489482ए), 16 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
07 मार्च 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-489199एम), 09 मार्च 2006

नायब सूबेदार शरवन कुमार (जेसी-489431एम), 09 मार्च 2006

नायब सूबेदार रामजैथ सिंह (जेसी-489191ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार तोप सिंहा (जेसी-489274एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार उमेश चंद (जेसी-489328एफ), 05 अप्रैल 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-489313वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-489334पी), 05 अगस्त 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार औतार सिंह (जेसी-489432पी), 25 अप्रैल 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार माँगू राम (जेसी-489364एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-489388डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-489389वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार रामेश्वर लाल (जेसी-489416एक्स), 24 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार गिरधारी राम (जेसी-489559एक्स), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार आनंद सिंह (जेसी-489495एक्स), 27 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सिस पाल सिंह (जेसी-489496ए), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-489524एफ), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रूम सिंह (जेसी-489434ए), 04 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार श्री कृष्ण (जेसी-489404एच), 05 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार भाकर राम (जेसी-489435एच), 10 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार विजय पाल (जेसी-489467एल), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 10 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-489472डब्ल्यू), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 28 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-489192एच), 14 मई 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार महा सिंह (जेसी-489268वाई), 01 मई 2006

नायब सूबेदार हवा सिंह भूरिया (जेसी-489464एक्स), 01 जून 2006

नायब सूबेदार पंजाब सिंह (जेसी-489390एन), 01 मई 2006

नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-489417ए), 11 अगस्त 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार शिश पाल (जेसी-489485एन), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-489489एफ), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रनवीर सिंह जाट (जेसी-489610एम), 01 जून 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-489193एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार भंवर लाल जाट (जेसी-489407डब्ल्यू), 04 सितम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-489553डब्ल्यू), 01 जून 2006

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-489486डब्ल्यू), 12 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार प्रेम चंद (जेसी-489488एफ), 01 जून 2006

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-489596एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार धर्मन्द्र सिंह (जेसी-489640के), 01 जून 2006

नायब सूबेदार नारायण लाल (जेसी-489286ए), 13 जून 2006

नायब सूबेदार बाबू रामा (जेसी-489408वाई), 16 जून 2006

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) यश पाल सिंह (जेसी-488886डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) हुकमा राम करीर (जेसी-488995एच), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) बलजोर सिंह (जेसी-488996एल), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) बलराज सिंह तोगरिया (जेसी-489019वाई), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) कमल सिंह (जेसी-489028ए), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) छत्तर सिंह श्योराण (जेसी-489034एन),  
01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) शीश कुमार सिंह खुशवहा (जेसी-489046एच),  
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) माँगे राम (जेसी-489060पी), 01 फरवरी  
2007

नायब सूबेदार (लिपिक) सूबे सिंह (जेसी-489079एन), 01 मार्च  
2007

नायब सूबेदार (लिपिक) बसाउ राम (जेसी-489086के), 01 मार्च  
2007

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रामफल सिंह (सं. 3178574डब्ल्यू अब जेसी-490051ए),  
13 मार्च 2007

हवलदार अनिल कुमार (सं. 3184606के अब जेसी-490052एच),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार लीला राम (सं. 3179032वाई अब जेसी-490053एल),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार जगदीश प्रसाद यादव (सं. 3179105ए अब  
जेसी-490054एन), 01 अप्रैल 2007

हवलदार श्री राम (सं. 3178447एफ अब जेसी-490055डब्ल्यू),  
19 अप्रैल 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाएगी)

हवलदार हरपाल सिंह, एस एम (सं. 3179371वाई अब  
जेसी-490056वाई), 01 अप्रैल 2007

हवलदार नेमी चन्द कुलहेरी (सं. 3182302एन अब जेसी-490057एफ),  
04 अप्रैल 2007

हवलदार इन्द्रपाल सिंह (सं. 3177837एक्स अब जेसी-490058के),  
01 मई 2007

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं. 3177839एच अब जेसी-490059एम),  
01 मई 2007

हवलदार बिजेन्द्र कुमार (सं. 3179690एल अब जेसी-490060एफ),  
01 मई 2007

#### नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राज कुमार (सं. 3178089एफ अब  
जेसी-490061के), 01 मई 2007

हवलदार (लिपिक) अमर भटनागर (सं. 3178095पी अब  
जेसी-490062एम), 01 मई 2007

#### मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अरूण सावंत (जेसी-226181एक्स), 26 अक्टूबर 2007+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है।)

सूबेदार फकिरा नावगेकर (जेसी-458077एफ), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार गायकवाड मानसिंग वामन (जेसी-458324के), 01 अप्रैल 2007

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पाटील राजाराम पांडुरंग (जेसी-459186ए), 25 फरवरी  
2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार माने अंकुश गोपाला (जेसी-459209डब्ल्यू), 30 मार्च  
2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार तोडकर पतंगराव वसंत (जेसी-459008एक्स),  
01 मार्च 2007

नायब सूबेदार गंगाधरप्पा टी बी (जेसी-459127एन), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार सावेकर अशोक शंकर (जेसी-459082वाई), 02 अप्रैल  
2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार निमत अविनाश शंकर (जेसी-459146वाई), 01 अप्रैल  
2007

#### सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक निर्भय चंद (जेसी-459123एक्स), 01 अप्रैल  
2007

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तुकाराम शिंदे (सं. 2786918ए अब जेसी-459692एल),  
11 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार गाट राजाराम विठ्ठल (सं. 2786978पी अब  
जेसी-459693एन), 11 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है।)



हवलदार पाटील कृष्णा आनंदा (सं. 2786998एच अब जेसी-459694डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार पिंगले आनंदराव रामचंद्र (सं. 2779634एम अब जेसी-459695वाई), 11 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार नाले अर्जुन हरिभाऊ (सं. 2782767पी अब जेसी-459696एफ), 23 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार सालुंके दिलिप केशव (सं. 2784178एक्स अब जेसी-459697के), 13 मार्च 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार गोरुले संजय संतराम (सं. 2782918एच अब जेसी-459698एम), 16 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार पाटील शिवाजी रघुनाथ (सं. 2782502एल अब जेसी-459700वाई), 26 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार पाटील भरत पांडुरंग (सं. 2786168एम अब जेसी-459701एफ), 13 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार राजा ए (सं. 2786698एफ अब जेसी-459702के), 01 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार एडके सुरेश मारुती (सं. 4071541के अब जेसी-459703एम), 01 मई 2007

हवलदार रहाणे मछिंद्र रावण (सं. 2786493एम अब जेसी-459704पी), 01 मई 2007

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक मुश्ताक अहमद (सं. 2780205वाई अब जेसी-459699पी), 23 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहम्मद अल्ताफ (सं. 2783064ए अब जेसी-459705एक्स), 17 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार मालेवार विजयकुमार बाबूराव (सं. 2786589पी अब जेसी-459706ए), 28 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार वाघ भगवान सर्जेराव (सं. 2784114एम अब जेसी-459707एच), 16 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार पाटील हरिभाऊ तानाजी (सं. 2783994एफ अब जेसी-459708एल), 25 जून 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार पाटील मधुकर गणपति (सं. 2785682के अब जेसी-459709एन), 25 जून 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार चांगाम्पा पाटील (सं. 2785695एफ अब जेसी-459710एच), 01 जून 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है।)

हवलदार शेख नन्ने साहेब (सं. 4183284वाई अब जेसी-459711एल), 08 जून 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2007 से दी जाती है।)

हवलदार शशिकांत गावडे (सं. 2783586डब्ल्यू अब जेसी-459712एन), 17 जून 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2007 से दी जाती है।)

हवलदार वीरय्या हिरेमठ (सं. 2784204एन अब जेसी-459713डब्ल्यू), 01 जून 2007

हवलदार मोहम्मद अशरफ शेख, एस एम (सं. 2782279एम अब जेसी-459714वाई), 01 जून 2007

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राम सरूप (जेसी-519246डब्ल्यू), 03 मई 2007+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है।)

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-520011डब्ल्यू), 01 मार्च 2007+  
 नायब सूबेदार बलदीप राज (जेसी-520125एफ), 07 मार्च 2007+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)  
 नायब सूबेदार सुरेश कुमार राणा (जेसी-519785एम), 03 मई 2007+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)  
 नायब सूबेदार देव राज डोगरा (जेसी-519876डब्ल्यू), 03 मई 2007+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)  
 नायब सूबेदार खेम चन्द (जेसी-520012वाई), 01 अप्रैल 2007  
 नायब सूबेदार अनिल विजय (जेसी-520017एक्स), 01 अप्रैल 2007

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक सुभाष चन्द्र (जेसी-520028के), 02 अप्रैल 2007+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-518956एफ), 09 मार्च 2007+  
 +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)  
 सूबेदार सोम दत्त शर्मा (जेसी-519159एच), 05 अप्रैल 2007+  
 +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)  
 सूबेदार अश्वनी कुमार शर्मा (जेसी-519230एल), 05 अप्रैल 2007+  
 +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रघुपाल सिंह (जेसी-519984ए), 01 जून 2006  
 नायब सूबेदार कर्म चन्द (जेसी-519931एफ), 13 जनवरी 2007+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है।)  
 नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-519959एफ), 03 फरवरी 2007+  
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है।)  
 नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-519961वाई), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार कल्याण सिंह मनहास (जेसी-519963के), 07 दिसम्बर 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 नवम्बर 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार हुशियार सिंह (जेसी-520001एम), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-519794एन), 26 मार्च 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-519795डब्ल्यू), 26 मार्च 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-519941एल), 23 मार्च 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार नसीब चन्द (जेसी-519975वाई), 24 फरवरी 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-520042डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार चमन लाल (जेसी-519867पी), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार राम फल (जेसी-519868एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार राजमल ठाकुर (जेसी-519938एल), 11 मार्च 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार सरवन सिंह (जेसी-519920पी), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-519942एन), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार रमेश चन्द राणा (जेसी-519945एफ), 15 मार्च 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-519969एल), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार दिलजीत सिंह (जेसी-519980के), 16 अप्रैल 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार वीर सिंह (जेसी-519852एम), 14 अप्रैल 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार (जेसी-520016पी), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-520031के), 01 अप्रैल 2007

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक कश्मीर सिंह (जेसी-519955एल), 01 फरवरी 2007

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 3986983ए अब जेसी-520496के), 07 जनवरी 2007

हवलदार प्रेम सागर (सं. 3987010डब्ल्यू अब जेसी-520497एम), 09 फरवरी 2007

हवलदार लाभ सिंह (सं. 3987733एल अब जेसी-520498पी), 01 मार्च 2007

हवलदार सेवा राम (सं. 3987879वाई अब जेसी-520499एक्स), 01 अप्रैल 2007

हवलदार मेहर चन्द (सं. 3987991एल अब जेसी-520500एफ), 01 मई 2007

हवलदार रघुपाल चन्द (सं. 3984685एल अब जेसी-520543डब्ल्यू), 14 मार्च 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार अंचल सिंह (सं. 3986278एफ अब जेसी-520544वाई), 22 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार जग राज (सं. 3986436एल अब जेसी-520545एफ), 26 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार रोनक सिंह (सं. 3987103एल अब जेसी-520546के), 12 जून 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार उधम सिंह (सं. 3984628एल अब जेसी-520547एम), 22 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 3984340के अब जेसी-520548पी), 19 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार अश्वनी कुमार सुपैहिया (सं. 3983802वाई अब जेसी-520549एक्स), 11 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार सुरेश चन्द (सं. 3983907एच अब जेसी-520550एम), 11 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 3987594एम अब जेसी-520551पी), 01 अप्रैल 2007

हवलदार करनैल सिंह (सं. 3985137ए अब जेसी-520552एक्स), 22 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार किशोरी लाल (सं. 3984596एम अब जेसी-520553ए), 05 जून 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार केवल कृष्ण (सं. 3984856एम अब जेसी-520554एच), 05 जून 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 3983933के अब जेसी-520555एल), 18 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार लखवीर सिंह (सं. 3987890एक्स अब जेसी-520556एन), 22 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है।)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 3987920के अब जेसी-520557डब्ल्यू), 22 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है।)

## नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक ज्योति बोस (सं. 3985790एन अब जेसी-520558वाई), 01 मई 2007

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सोम नाथ (सं. 3988442एक्स अब जेसी-520501के), 17 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार प्रकाश चंद डोगरा (सं. 3984017पी अब जेसी-520502एम), 25 दिसम्बर 2006

हवलदार मुबारक सिंह (सं. 3986863एफ अब जेसी-520503पी),  
23 फरवरी 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 17 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार उधम सिंह (सं. 3984659के अब जेसी-520504एक्स),  
24 जनवरी 2007

हवलदार धर्म पाल (सं. 3985127डब्ल्यू अब जेसी-520505ए),  
13 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 31 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार रोमेश सिंह (सं. 3985243वाई अब जेसी-520506एच),  
15 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार गुरदास मल (सं. 3983935पी अब जेसी-520507एल),  
01 मार्च 2007

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3985361एम अब जेसी-520508एन),  
20 मार्च 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार परमिन्दर कटोच (सं. 13617355वाई अब  
जेसी-520509डब्ल्यू), 02 मार्च 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार बलदेव राज (सं. 3987215एल अब जेसी-520510एल),  
02 मार्च 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 3985552एफ अब जेसी-520511एन),  
14 मार्च 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार परशोतम राम (सं. 3987250एन अब जेसी-520512डब्ल्यू),  
02 मार्च 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार राम लाल (सं. 3983716एन अब जेसी-520513वाई),  
17 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 21 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार बसंत कुमार (सं. 3986174ए अब जेसी-520514एफ),  
13 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 21 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार परशोतम कुमार (सं. 13616376एच अब जेसी-520515के),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार देश राज (सं. 3985694वाई अब जेसी-520516एम),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 3983791एक्स अब जेसी-520517पी),  
17 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार धर्म सिंह (सं. 3984380एल अब जेसी-520518एक्स),  
20 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3984695पी अब जेसी-520519ए),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार शक्ति सिंह (सं. 3985575एच अब जेसी-520520पी),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार मूल राज (सं. 3984217एक्स अब जेसी-520521एक्स),  
17 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार भीम सिंह (सं. 3984272एफ अब जेसी-520522ए),  
07 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 3985588ए अब जेसी-520523एच),  
13 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार कृष्ण सिंह (सं. 3391184डब्ल्यू अब जेसी-520524एल),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 3391185वाई अब जेसी-520525एन),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार विजय कुमार (सं. 3391186एफ अब जेसी-520526डब्ल्यू),  
13 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार पुशविन्दर सिंह (सं. 4358884ए अब जेसी-520527वाई),  
05 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार जगदीप सिंह (सं. 3987830एच अब जेसी-520528एफ),  
05 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार श्याम लाल (सं. 3987871एम अब जेसी-520529के),  
05 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार जगदेव सिंह (सं. 3986343डब्ल्यू अब जेसी-520530वाई),  
13 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 3986649वाई अब जेसी-520531एफ),  
13 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार रूम सिंह (सं. 3988189एफ अब जेसी-520532के),  
16 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार संतोष कुमार (सं. 3986705एम अब जेसी-520533एम),  
13 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार शंकर दास (सं. 3986719ए अब जेसी-520534पी),  
30 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।)

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 3983607एफ अब जेसी-520535एक्स),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार निरंक सिंह (सं. 3983635एन अब जेसी-520536ए),  
06 अप्रैल 2007

हवलदार दलीप सिंह (सं. 3983664एच अब जेसी-520537एच),  
06 अप्रैल 2007

हवलदार दुर्गा सिंह (सं. 3984726के अब जेसी-520538एल),  
10 अप्रैल 2007

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3985143एन अब जेसी-520539एन),  
12 अप्रैल 2007

हवलदार दर्शन कुमार (सं. 3985190एल अब जेसी-520540एच),  
04 मई 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है।)

हवलदार अनिल कुमार शर्मा (सं. 3988121ए अब जेसी-520541एल),  
01 मई 2007

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 3983663ए अब जेसी-520542एन),  
01 मई 2007

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3983616एच अब जेसी-520489एन),  
24 फरवरी 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार बसंत सिंह (सं. 3983691एम अब जेसी-520490एच),  
24 फरवरी 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार सूचा सिंह (सं. 3991372पी अब जेसी-520491एल),  
12 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3987884के अब जेसी-520492एन),  
09 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार धर्म चन्द (सं. 3983713ए अब जेसी-520493डब्ल्यू),  
06 अप्रैल 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार चौद लाल (सं. 3987589एफ अब जेसी-520494वाई),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार यश पाल सिंह (सं. 3985877पी अब जेसी-520495एफ),  
01 अप्रैल 2007

मद्रास रेजीमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बोन्नू पापा राव (जेसी-439284वाई), 29 जुलाई 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रमेश सी (जेसी-439111एफ), 10 फरवरी 2007\*  
 \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जी जेरोल्ड देवासहायम (जेसी-439077एम), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार सी चन्द्रसेकरन (जेसी-439096एक्स), 23 फरवरी 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राधाकृष्णन बी (जेसी-439264एल), 05 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मनिकन्टन नायर एम (जेसी-439227एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार हरिदासन के (जेसी-439378डब्ल्यू), 05 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पंदिरा पोइना पोलु राजु (जेसी-438380एन), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार पान्डियाराज जी (जेसी-439440एक्स), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार एस मनिमारन गोविंदसामी (जेसी-439423एक्स), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार मणिकन्टन चेदिटयार (जेसी-439437एक्स), 01 अप्रैल 2007

#### सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क जयधरन पिल्लै बी (जेसी-439298वाई), 12 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार क्लर्क अगस्टिन पी जी (जेसी-439299एफ), 14 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सेबास्टियन पी एम (जेसी-439247एल), 24 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मेकला नागराजा रेड्डी (जेसी-439374ए), 25 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रकाश के के (जेसी-439221डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जी वी प्रबाकर राव (जेसी-439375एच), 08 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मल्लप्पा चनप्पा होसाकोटी (जेसी-439281एल), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार सिवा कुमार सी (जेसी-439283डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार गणपती ए एम (जेसी-439249डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार सथीश कुमार ए के (जेसी-439055एन), 04 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गन्डि रामु नायुडु (जेसी-439191के), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार मुरली के (जेसी-439367के), 04 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रामलिंग सालि (जेसी-439405पी), 08 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पी परसुरामन (जेसी-439396वाई), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार ज्ञानसेखर एस (जेसी-439414डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोक गंगप्पा मोकन्नावार (जेसी-439400डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जीरू अनन्धा राव (जेसी-439338पी), 07 मई 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजु एम आर (जेसी-439163एक्स), 09 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राधाकृष्णन जी (जेसी-439169वाई), 30 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जी रामन (जेसी-439240एफ), 09 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सिद्धा वेंकटा नीलाचलम (जेसी-439222वाई), 02 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कुमार एल बी (जेसी-439386पी), 30 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र मोहन एन (जेसी-205859एम), 02 जनवरी 2007\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार कृष्णन सी (जेसी-438134डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

सूबेदार सुब्बुराज पी ए (जेसी-438138एम), 01 मार्च 2007

सूबेदार ठोमी एन जे (जेसी-438629एच), 01 मार्च 2007

सूबेदार बशीर एन (जेसी-438222एम), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार वर्गीस पी जी (जेसी-518918एल), 01 अप्रैल 2007

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सदानन्दन पी आर (जेसी-439177एक्स), 01 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार आर एस शनमुगम (जेसी-439115एक्स), 10 फरवरी 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बाबू कुट्टन के (जेसी-439345एल), 30 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रसन्नन पिल्लै बी (जेसी-439321एफ), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार के पेरिया पान्डी (जेसी-439377एन), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार भट्ट अनंत (जेसी-439434एक्स), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार एम अंकि रेड्डी (जेसी-439481एफ), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार एम अलेक्जान्डर (जेसी-439214ए), 24 फरवरी 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रवि कुमार के आर (जेसी-439150ए), 24 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मा राव सैनी (जेसी-439179एच), 13 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जयाशंकरन टी यू (जेसी-439212पी), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार महेन्द्रन एम (जेसी-439251एन), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार नंदिकुन्दा शंकर रेड्डी (जेसी-439294एच), 03 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सी प्रभाकरन (जेसी-439365वाई), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार मलथेशप्पा डी (जेसी-438984ए), 21 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जी रवि (जेसी-439139एफ), 20 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्री कुमार एस (जेसी-439140डब्ल्यू), 20 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रविचन्द्रन के (जेसी-439201एच), 22 मार्च 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एस बुच्चि रेड्डी (जेसी-439275एक्स), 11 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार आर देवराज (जेसी-439286के), 13 अप्रैल 2007\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

#### ग्रेनेडियर्स

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तेजपाल सिंह (सं. 8031594वाई अब जेसी-450222वाई), 23 जुलाई 2006

हवलदार प्रेम पाल (सं. 2687872ए अब जेसी-450223एफ), 14 अगस्त 2006

हवलदार हारून खान (सं. 2680783वाई अब जेसी-450224के), 01 सितम्बर 2006

हवलदार नैत्र पाल (सं. 2680556वाई अब जेसी-450225एम),  
16 सितम्बर 2006

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2680563पी अब जेसी-450226पी),  
21 सितम्बर 2006

हवलदार शैतान सिंह प्रतिहार (सं. 2683051एन अब जेसी-450227एक्स), 28 सितम्बर 2006

हवलदार खेता राम गुर्जर (सं. 2679870ए अब जेसी-450228ए),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार सौवर मल (सं. 2676369एच अब जेसी-450229एच),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार जीव राज सिंह (सं. 2678548एफ अब जेसी-450230एक्स),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 2678199एच अब जेसी-450231ए),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार तिलक राज (सं. 2678012एल अब जेसी-450232एच),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 2680617एल अब जेसी-450233एल),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार महमूद अहमद खान (सं. 2678744एफ अब जेसी-450234एन), 01 अक्टूबर 2006

हवलदार समशेर खान (सं. 2679735एम अब जेसी-450235डब्ल्यू),  
20 जनवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2006)

हवलदार सूवा कदत (सं. 2679343वाई अब जेसी-450236वाई),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 2680510डब्ल्यू अब जेसी-450237एफ),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2680760एक्स अब जेसी-450238के),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार सुभाष सिंह (सं. 2679313एफ अब जेसी-450239एम),  
10 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2006)

हवलदार बलवान सिंह (सं. 2679980पी अब जेसी-450240एफ),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार तिलक राज (सं. 2680369ए अब जेसी-450241के),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार चमन लाल (सं. 2680488डब्ल्यू अब जेसी-450242एम),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार रनजीत सिंह (सं. 2680683एन अब जेसी-450243पी),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार हेम राज (सं. 2680574एफ अब जेसी-450244एक्स),  
03 अक्टूबर 2006

हवलदार रनबीर सिंह (सं. 2680581एक्स अब जेसी-450245ए),  
03 अक्टूबर 2006

हवलदार सोम दत्त (सं. 2680634एल अब जेसी-450246एच),  
15 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
03 अक्टूबर 2006)

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 2680415के अब जेसी-450247एल),  
04 अक्टूबर 2006

हवलदार केहर सिंह (सं. 2678021एम अब जेसी-450248एन),  
04 अक्टूबर 2006

हवलदार करन सिंह (सं. 2678362एक्स अब जेसी-450249डब्ल्यू),  
15 अक्टूबर 2006

हवलदार जीत सिंह (सं. 2681303डब्ल्यू अब जेसी-450250एल),  
31 अक्टूबर 2006

#### 4 जी आर

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गणेश बहादुर राना (सं. 5345324एल अब जेसी-612672डब्ल्यू), 26 अप्रैल 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2006)

हवलदार चिन बहादुर बुदुजा पुंन (सं. 5346436एक्स अब जेसी-612673वाई), 26 अप्रैल 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2006)

हवलदार दुर्गा बहादुर थापा (सं. 5346471ए अब जेसी-612674एफ),  
16 मई 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 28 अप्रैल 2006)

हवलदार अर्पण थापा (सं. 5345821पी अब जेसी-612675के),  
20 जून 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 07 जून 2006)

हवलदार लिपिक सुरेश चन्द्रा (सं. 5345570डब्ल्यू अब जेसी-612676एम), 01 सितम्बर 2006

हवलदार पदम बहादुर गुरूंग (सं. 5346495के अब जेसी-612677पी),  
30 सितम्बर 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2006)

हवलदार राज मन पुंन (सं. 5346553एच अब जेसी-612678एक्स),  
01 अक्टूबर 2006



हवलदार छबी लाल थापा (सं. 5345290एच अब जेसी-612679ए),  
31 अक्टूबर 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2006)

हवलदार कमल ठाकुर (सं. 5345422एल अब जेसी-612680पी),  
01 अक्टूबर 2006

हवलदार महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ (सं. 5345844डब्ल्यू अब जेसी-612681एक्स), 13 नवम्बर 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2006)

हवलदार जुधा बहादुर राना (सं. 5345474एफ अब जेसी-612682ए),  
11 नवम्बर 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2006)

हवलदार रूद्रा बहादुर अले (सं. 5346675एम अब जेसी-612683एच), 15 नवम्बर 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 13 अक्टूबर 2006)

हवलदार भीम सिंह (सं. 5345230एन अब जेसी-612684एल),  
01 अक्टूबर 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2006)

हवलदार सुनील कुमार गुरूंग (सं. 5345729एन अब जेसी-612685एन), 06 अक्टूबर 2006

हवलदार मोहनी लाल न्युपाने (सं. 5345855एच अब जेसी-612686डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2006)

कुमाऊं रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार शेरी राम (नं. 4179469एच अब जेसी-540136पी),  
13 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से दी गई है।)

हवलदार देव सिंह रावल (नं. 4179407एच अब जेसी-540137एक्स),  
13 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से दी गई है।)

हवलदार गोविन्द सिंह (नं. 4179428वाई अब जेसी-540138ए),  
13 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से दी गई है।)

हवलदार चन्द्रा सिंह (नं. 4179621एल अब जेसी-540139एच),  
13 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से दी गई है।)

हवलदार श्री पाल सिंह (नं. 7430620ए अब जेसी-540135एम),  
24 मार्च 2007/01 मार्च 2007\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2007 से दी गई है।)

हवलदार सत्य प्रकाश (नं. 4181144एन अब जेसी-540140एक्स),  
02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से दी गई है।)

हवलदार सत्यवीर सिंह यादव (नं. 4181224एल अब जेसी-540141ए),  
02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से दी गई है।)

हवलदार महेन्द्र कुमार यादव (नं. 4190442एल अब जेसी-540142एच), 01 अप्रैल 2007

हवलदार प्रेम सिंह यादव (नं. 4181322एल अब जेसी-540143एल),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार राकेश कुमार (नं. 4182263डब्ल्यू अब जेसी-540144एन),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार राज कुमार (नं. 4178040एफ अब जेसी-540145डब्ल्यू),  
05 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से दी गई है।)

हवलदार चंचल सिंह जरमल (नं. 4178368एच अब जेसी-540146वाई), 01 अप्रैल 2007

नागा रेजिमेन्ट

हवलदार गोपाल दत्त (नं. 14702133एक्स अब जेसी-590201ए),  
01 अप्रैल 2007

कुमाऊं रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार शिव कुमार (नं. 4180457ए अब जेसी-540148के),  
01 मई 2007

हवलदार भूपाल सिंह बिष्ट (नं. 4179136डब्ल्यू अब जेसी-540147एफ), 01 मई 2007

हवलदार बन्सी राम (नं. 14701556वाई अब जेसी-540151के),  
28 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से दी गई है।)

हवलदार महेश चन्द्र सिंह (नं. 4184900ए अब जेसी-540152एम),  
08 मई 2007/01 मई 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2007 से दी गई है।)

हवलदार रघुनाथ सिंह (नं. 4179698एन अब जेसी-540153पी),  
09 मई 2007/01 मई 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2007 से दी गई है।)

हवलदार जगदीश चन्द्र पाण्डे (नं. 4181133एफ अब जेसी-540154एक्स), 09 मई 2007/01 मई 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2007 से दी गई है।)

हवलदार अवध किशोर (नं. 4176944एच अब जेसी-540149एम),  
01 मई 2007

हवलदार कुन्दल सिंह (नं. 4179647ए अब जेसी-540155ए),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार धरम सिंह (नं. 4177894पी अब जेसी-540156एच),  
01 अप्रैल 2007

हवलदार रमेश कुमार (नं. 4180614एफ अब जेसी-540157एल),  
07 मई 2007/01 मई 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2007 से दी गई है।)

हवलदार भूपाल सिंह (नं. 4179026एफ अब जेसी-540158एन),  
01 मई 2007

हवलदार बिशान सिंह कौरा (नं. 4179094पी अब जेसी-540159डब्ल्यू), 01 मई 2007

#### नागा रजिमेन्ट

हवलदार भीम बहादुर गुर्खा (नं. 14701858एल अब जेसी-590201ए),  
06 मार्च 2007/19 फरवरी 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 19 फरवरी 2007 से दी गई है।)

#### पंजाब रजिमेन्ट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलदेव सिंह (नं. 2478128एक्स अब जेसी-430122एम),  
01 सितम्बर 2006

हवलदार रमेश सिंह (नं. 2475687डब्ल्यू अब जेसी-430115डब्ल्यू),  
20 जनवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार बलबिन्दर सिंह (नं. 2479447डब्ल्यू अब जेसी-430116वाई),  
05 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार कुलदीप सिंह (नं. 2476360के अब जेसी-430123पी),  
13 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार निर्मल सिंह (नं. 2478647ए अब जेसी-430117एफ),  
16 जनवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार महेर सिंह (नं. 2474889एल अब जेसी-430118के),  
20 जनवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार लखविन्दर सिंह (नं. 2478735डब्ल्यू अब जेसी-430124एक्स), 21 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार हीरा लाल (नं. 2480756एल अब जेसी-430125ए),  
28 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार गुरनाम सिंह (नं. 2480275वाई अब जेसी-430126एच),  
14 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार सुरेन्द्र पाल (नं. 2474969एच अब जेसी-430127एल),  
22 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार प्रताप सिंह (नं. 2475000एफ अब जेसी-430128एन),  
22 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार रमेश चंद अगान (नं. 2479703ए अब जेसी-430119एम),  
05 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार जोगिन्दर सिंह (नं. 2475670एच अब जेसी-430120एफ),  
01 फरवरी 2007

हवलदार बावा सिंह (नं. 2476273डब्ल्यू अब जेसी-430129डब्ल्यू),  
23 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
21 फरवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार जगतार सिंह (नं. 2479260के अब जेसी-430130एल),  
07 मार्च 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2007 से दी जाती है।)

हवलदार तरसेम सिंह (नं. 2478995एफ अब जेसी-430131एन),  
01 मार्च 2007

हवलदार सुभाष चंद (नं. 2474644पी अब जेसी-430132डब्ल्यू),  
01 मार्च 2007

हवलदार तरलोक चंद (नं. 2474655एफ अब जेसी-430133वाई),  
01 मार्च 2007

#### 8 जी आर

नायब सूबेदार/जी डी के रैंक में

हवलदार राज बहादुर राना (नं. 5751984एम अब जेसी-623757एम),  
12 अप्रैल 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाएगी।)

हवलदार ओम नारायण श्रेष्ठ (नं. 5751879डब्ल्यू अब  
जेसी-623760एम), 01 अप्रैल 2007

हवलदार सेर बहादुर गुरूंग (नं. 5752011एच अब जेसी-623762एक्स),  
28 मई 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाएगी।)

हवलदार सुन बहादुर गुरूंग (नं. 5751221डब्ल्यू अब जेसी-623763ए),  
07 मई 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी।)

हवलदार लक्ष्मन थापा (नं. 5751813ए अब जेसी-623750एच),  
20 मार्च 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी।)

हवलदार खर्का बहादुर पुन (नं. 5751306एम अब जेसी-623758पी),  
01 मार्च 2007

हवलदार यम बहादुर थापा (नं. 5751821वाई अब  
जेसी-623759एक्स), 01 मार्च 2007

हवलदार बुद्धि राज थापा (नं. 5752712वाई अब जेसी-623761पी),  
08 अप्रैल 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी है।)

#### विशेष सूची

दि राजपूत रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक रूप में)

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) उदित नारायण मिश्रा (जेसी-126995एफ),  
01 अप्रैल 2007

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) कृष्णा नन्द पाठक (जेसी-122084एन),  
01 अप्रैल 2007

सूबेदार (धर्म शिक्षक रूप में)

सूबेदार (धर्म शिक्षक) रविन्द्र प्रसाद (जेसी-478604वाई), 01 मई  
2007

#### पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार धार्मिक शिक्षक ग्रन्थी के रैंक में

नायब सूबेदार शिक्षक ग्रन्थी गुरजीत सिंह (जेसी-428384के),  
01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार शिक्षक ग्रन्थी मदन सिंह (जेसी-428440एक्स),  
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार धार्मिक शिक्षक ग्रन्थी के रैंक में

हवलदार सरबजीत सिंह (2481729एन अब जेसी-429827एम),  
11 जून 2005

लांस नायक साहिब सिंह (15385947पी अब जेसी-429828पी),  
11 जून 2005

आर आर टी (ग्रन्थी) हरविन्दर सिंह (जेसी-429944एक्स),  
12 मई 2006

आर आर टी (ग्रन्थी) स्वरनदीप सिंह (जेसी-429945ए),  
12 मई 2006

नायब सूबेदार धार्मिक शिक्षक पंडित के रैंक में

आर आर टी (पंडित) परवीन शर्मा (जेसी-429787डब्ल्यू),  
20 अगस्त 2005

#### जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार धर्मशिक्षक के रैंक में

रिक्रूट आर टी दीपक कुमार पाठक (580382एच अब  
जेसी-580382एच), 07 अप्रैल 2007

एस अशरफ  
अवर सचिव

सं. 466, दिनांक 28 अगस्त 2007—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (टीएस) से कर्नल (चयनित) पद पर

ए पी मोहन्ती (एम आर-4073के), 04 अक्टूबर 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 25 अगस्त 2005

कैप्टन से मेजर के पद पर

रोहित टंडन (एमआर-08460डब्ल्यू), ए एम सी, 07 अप्रैल 2007

सन्याब्रतो चटर्जी (एमआर-08306एक्स), एम एम सी, 17 फरवरी 2007

धनलक्ष्मी बी (एमआर-08303के), ए एम सी, 17 मार्च 2007

शील कुमार मिश्रा (एमआर-08111एम), ए एम सी, 17 अप्रैल 2006

(श्रीमती) शबीना तंवर (एमएस-14359एम), (एम आर-08407एल), ए एम सी 28 फरवरी 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

आशीश तंवर (एमएस-14398एल), (एम आर-08289एच), ए एम सी 27 फरवरी 2006

सर्जन लेफ्टिनेन्ट कमान्डर के पद पर

स्मीता दत्ता (एमएस-14577एल), (एम आर-08444वाई), (75815एफ), ए एम सी 11 मार्च 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

स्कवाड्रन लीडर से विंग कमान्डर के पद पर

आर. श्रीनाथ (एमआर-06584एम), (एफ-22488), ए एम सी 16 दिसम्बर 2004

पोलीन बाबू (एमआर-06599पी), (एफ-22505), ए एम सी 16 दिसम्बर 2004

वी. कुलश्रेष्ठा (एमआर-06504के), (एफ-22349), ए एम सी 16 दिसम्बर 2004

अखिलेश गोधल (एमआर-07058ए), (एफ-22475), ए एम सी 16 दिसम्बर 2004

सुनील कुमार सिन्हा (एमआर-07060एक्स), (एफ-23069एफ), ए एम सी 22 जनवरी 2005

पी. किनरा (एमआर-06735ए), (एफ-23411एच), ए एम सी 04 जनवरी 2007

पी. रवि राघवन (एमआर-06736ए), (एफ-23412एल), ए एम सी 04 जनवरी 2007

गीता गुप्ता (एमआर-07456एफ), (एफ-23488एल), ए एम सी 28 मार्च 2007

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट से स्कवाड्रन लीडर

हरविन्दर पाल सिंह सहोटा (एमआर-08332वाई), (एफ-26922), ए एम सी 07 जनवरी 2007

राज मोहन (एमआर-07693एल), (एफ-26907), ए एम सी 04 मार्च 2007

सुनीता देसाइ राव पाटिल (एमआर-08385एक्स), ए एम सी 16 अप्रैल 2007

मुहम्मद महबूब पाशा एस (एमएस-14381एक्स), (एमआर-08456एन), (ए एफ-26500एन), ए एम सी 21 जनवरी 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

मधु जी (एमआर-08411एन), (एफ-26501एस), ए एम सी 21 जनवरी 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

रवीन्द्र नाथ

ब्रिगेडियर

संयुक्त डीजीएफएमएस (कार्मिक)

सं. 467, दिनांक 27 अगस्त 2007—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी न., नाम, आर्म

64971, अभिषेक सिंह, ए सी

64972, नारायण सिंह भाटी, इन्फैन्ट्री

64973, राजेश डोगरा, इन्फैन्ट्री

64974, रजनीश कुमार, एडी आर्टी

64975, अतीक अहमद मोहम्मद कासिम सिद्दिकी, आर्टी

64976, एच सबरीनाथ, इन्फैन्ट्री

64977, मनीष ठाकुर, सिग्नल्स

64978, अरूण कुमार चौबे, ई एम ई

64979, तरवेनी प्रसाद शर्मा, इन्फैन्ट्री	65021, अशोक कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
64980, के पूर्ण चन्द्र राव, इंजीनियर्स	65022, दिनेश सिंह तंवर, इन्फैन्ट्री
64981, गिरिश अवस्थी, मैक इन्फैन्ट्री	65023, इन्द्रजीत घोष, इन्फैन्ट्री
64982, सुमित सभरवाल, आर्टी	65024, नरेन्द्र सिंह शेखावत, इंजीनियर्स
64985, परवीन कुमार, इन्फैन्ट्री	65025, सौरभ शर्मा, आर्टी
64987, गोरख सिंह सेनगर, इन्फैन्ट्री	65026, समीर अवस्थी, आर्टी
64988, सुनील कुमार, एसी	65027, विजय सिंह, इन्फैन्ट्री
64990, विवेक सिंह चुंडावत, इन्फैन्ट्री	65029, अमित कन्डारी, इन्फैन्ट्री
64992, जयदेव सिंह गुलेरिया, आर्टी	65031, अश्विन कुमार लाल, इंजीनियर्स
64993, गुरिन्दर पाल सिंह अमोले, आर्टी	65032, प्रदीप शर्मा, इंजीनियर्स
64994, शशि भूषण जाट, ए डी आर्टी	65033, शैलेश सत्यार्थी, आर्टी
64995, शैलेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	65034, दीपक चौधरी, ए डी आर्टी
64996, दीपक कुमार सिंह मेहरा, ए डी आर्टी	65035, शैलेश पी राव, इन्फैन्ट्री
64997, संदीप दुगल, एसी	65036, तकीर मुन्ताखब, इन्फैन्ट्री
64998, अदवितिया कुमार सिन्हा, ए एस सी	65037, विशाल दिददी, इन्फैन्ट्री
64999, विशाल राणा, इन्फैन्ट्री	65038, सुखदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
65000, देबाराज भट्टाचार्य, इन्फैन्ट्री	65039, नरेश पराशर, ए डी आर्टी
65001, अलोक शुक्ला, आर्टी	65040, प्रसेनजित वासु, इन्फैन्ट्री
65002, गगन मल्होत्रा, आर्टी	65041, नील गगन सिंह कथूरिया, मैक इन्फैन्ट्री
65004, पवन सिंह, ई एम ई	65042, शकूर अंजुम, ई एम ई
65005, अनुज सूदन, एसी	65043, सूर्या प्रकाश, आर्टी
65006, समीर भारती, इन्फैन्ट्री	65044, पंकज रावत, इंजीनियर्स
65007, गुलरेज हसन, आर्टी	65045, जगदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
65008, आशीष खन्ना, इन्फैन्ट्री	65046, आशीष हनसेन, इन्फैन्ट्री
65010, संजय यादव, आर्टी	65048, नरेन्द्र प्रसाद, इन्फैन्ट्री
65011, विकास, इन्फैन्ट्री	65050, किशन सिंह मेहरा, आर्टी
65012, दिलीप आर, ई एम ई	65051, हेरोल्ड थामस, आर्टी
65014, वी सिवारामन, इंजीनियर्स	65052, अमर प्रीत सिंह, आर्टी
65015, सुभाष सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	65053, राहुल ननजप्पा, इन्फैन्ट्री
65016, समबित कुमार साहू, आर्टी	65054, दुबाश फिरदोश परवेज, इन्फैन्ट्री
65017, अनिरबन भौमिक, इन्फैन्ट्री	65055, जोगिन्दर पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
65018, हर्ष वर्धन सिंह राठौर, ए ओ सी	65057, नमित मिनोचा, आर्टी
65019, दीप सिंह भिंडर, एसी	65058, भानू प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
65020, जसविन्दर सिंह कौरा, आर्टी	65059, महेन्द्र सिंह धारीवाल, इन्फैन्ट्री

65060, अमित कुमार कर्णवाल, आर्टी  
 65061, जिस्सान्तो के, ए डी आर्टी  
 65062, कशिश वाधवा, इन्फैन्ट्री  
 65063, जेरी मनोहर, इन्फैन्ट्री  
 65064, राजबीर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65065, सन्तोष कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65066, अनिश कटोच, आर्टी  
 65067, गुरमिन्दर सिंह, आर्टी  
 65068, मानिक त्रेहन, एसी  
 65069, मनोज चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 65070, जावेद अब्दी, आर्टी  
 65071, रवि जी रैना, आर्टी  
 65072, श्रवण कुमार अग्रवाल, इन्फैन्ट्री  
 65073, गुरुमयूम रणजीत शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 65074, विजय अब्राहम थाम्पी, इंजीनियर्स  
 65076, शलभ चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 65077, महावीर सिंह, आर्टी  
 65078, अनुभव गैरोला, एसी  
 65079, अमित गुप्ता, आर्टी  
 65080, विक्रान्त, ए ओ सी  
 65081, डिसूजा जॉर्ज रूजय, इन्फैन्ट्री  
 65082, अरूण कुमार दत्ता, इंजीनियर्स  
 65083, मनिष मोहन सिन्हा, ए एस सी  
 65086, निषीथ थपलियाल, इन्फैन्ट्री  
 65087, आशीष चौहान, इंजीनियर्स  
 65088, जे शैरी, इंजीनियर्स  
 65089, सम्राट नागर, मैक इन्फैन्ट्री  
 65091, समीर सोमन, आर्टी  
 65092, गोगेन वाई पेही, इन्फैन्ट्री  
 65093, रवि राजा, इन्फैन्ट्री  
 65094, अभिमन्यु सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65096, शल्य चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 65098, भूमिन्दर सिंह सन्धु, इन्फैन्ट्री  
 65099, पी प्रमोथ, आर्टी  
 65100, अलोक कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री  
 65101, सौरभ खन्ना, आर्टी

65102, धीरज मोदगिल, इन्फैन्ट्री  
 65103, मनीष कुमार, इन्फैन्ट्री  
 65104, दिनेश चन्दर वशिष्ठ, ए ओ सी  
 65105, अमित अवस्थी, इन्फैन्ट्री  
 65107, अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 65108, शमन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 65109, गुहानराज के, ई एम ई  
 65110, ईशान राजावरापू, आर्टी

--2 मई 2007--

शिव राम बैरवा  
 उप निदेशक  
 एम एस 8 सी

#### सेना सचिव शाखा

सं. 468, दिनांक 28 अगस्त 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

#### ले. जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आई सी., आर्म ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि  
 मेजर जनरल पी सी भारद्वाज, 30 जनवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन  
 वी आर सी, एस सी, वी एस एम, व पेंशन पर असर डाले बिना  
 (आई सी-24178), पारा 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी।  
 मेजर जनरल शैखौन ए एस, 01 नवम्बर 2006  
 एवी एस एम, वाई एस एम,  
 (आई सी-24208), सिख लाई  
 मेजर जनरल औल ए एन, 01 नवम्बर 2006  
 यू वाई एस एम,  
 (आई सी-24255), 3 जी आर  
 मेजर जनरल बी एस नागल, 17 दिसम्बर 2006  
 एस एम,  
 (आई सी-24260), जाट  
 मेजर जनरल जसवाल बी एस, 02 फरवरी 2007  
 एवी एस एम,  
 (आई सी-24584), जैक रिफ  
 मेजर जनरल गौतम दत्त, 07 फरवरी 2007  
 वी एस एम,  
 (आई सी-23266), इंजी.

मेजर जनरल एच एस सहगल,  
एवी एस एम,  
(आई सी-23486), आर्टी

18 अप्रैल 2007

मेजर जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आई सी., आर्म ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

ब्रिगे. भटनागर विनय,  
(आई सी-27205), 5 जी आर व पेंशन पर असर डाले बिना 01 सितम्बर 2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. पंजीकर पी सी, वी एस एम 11 मई 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 जनवरी 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. परवी एस.एन, वाई एस एम 01 नवम्बर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2005 से दी जाएगी।

ब्रिगे. आर के सनन  
(आई सी-25078), ईएमई 01 जनवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए के सिंह  
(आई सी-25405), 64 कैब 21 मई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ग्रेवाल बी एस  
(आई सी-25473), 4 हार्स 01 दिसम्बर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 नवम्बर 2005 से दी जाएगी।

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आई सी., आर्म ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

कर्नल जे के झा  
(आई सी-31193), सिग्स 09 जून 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल के एस सैनी  
(आई सी-30347), ई एम ई 02 जून 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल चड्ढा सुनील  
(आई सी-31685), आर्टी 01 जून 2006

कर्नल रावत अरविन्द सिंह  
(आई सी-31793), ए ओ सी 01 जुलाई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल वर्मा अशोक कुमार  
(आई सी-31895), एएडी 01 जून 2006

कर्नल सहेल चैल भरीलाल  
(आई सी-35401), इंजी. 01 जून 2006

कर्नल राजन मिनोचा  
(आई सी-35459), ई एम ई 07 जुलाई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल कृष्ण कुमार  
(आई सी-34037), ए ओ सी 01 अक्टूबर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अगस्त 2006 से दी जाएगी।

कर्नल सक्सैना आर पी  
(आई सी-34078), ई एम ई 01 अक्टूबर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 अगस्त 2006 से दी जाएगी।

कर्नल चाको आई पी ई पी  
(आई सी-34080), 64 कैब 01 अक्टूबर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 अगस्त 2006 से दी जाएगी।

कर्नल पी सी जानीथा  
(आई सी-35800), ईएमई 01 जनवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 सितम्बर 2006 से दी जाएगी।

कर्नल एन के शर्मा  
(आई सी-35838), ईएमई 01 जनवरी 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 सितम्बर 2006 से दी जाएगी।

एन के फूकन  
एएमएस/एमएस (एक्स)

सेना शाखा

सं. 469, दिनांक 28 अगस्त 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 18-07-2005 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

कप्तान आशीश तैवर (एम एस-14398-एल) (एम आर-08289एच) ए एम सी 27 फरवरी 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12-04-2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टि के पद पर

सर्जन लेफ्टि स्मीता दत्ता (एम एस-14577-एल) (एम आर-08444-डब्ल्यू) (75815-एफ) ए एम सी 11 मार्च 2003 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 11 मार्च 2000 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम. डी. अनिसिथिषोलोजी के लिए दी गई 36 महिने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा-निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10-12-2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 15-06-2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

सर्जन लेफ्टिनेन्ट अजय शर्मा (एम एस-14754ए) (एम आर-08467ए), (नेवि-75836बी), ए एम सी 17 फरवरी 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03-09-2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट ब्रिजेश कुमार सोनी (एम एस-14673ए) (एम आर-08464एम), (नेवि-75825बी), ए एम सी 18 नवम्बर 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03-09-2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट भारत खेमजी जानी (एम एस-14683के) (एम आर-08465पी), (नेवि-75827एच), ए एम सी 06 दिसम्बर 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03-09-2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 04 दिसम्बर 2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

सर्जन लेफ्टिनेन्ट स्मृति माथुर (एम एस-14847पी) (एम आर-08482के), (नेवि-75851एन), ए एम सी 27 जुलाई 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03-09-2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट अजय नाथन (एम एस-14814के) (एम आर-08480के), (नेवि-75830आर), ए एम सी 05 जनवरी 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03-09-2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मुहम्मद महबूब पाशा एस (एम एस-14381एक्स) (एम आर-08456एन), (एएफ-26500एन), ए एम सी 21 जनवरी 2002

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05-07-2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

स्काइन लीडर के पद पर

यतेन्द्रा दिनकर (एम एस-14659एन) (एम आर-08475वाई), (एफ-26929जी), ए एम सी 13 जनवरी 2007

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट यतेन्द्रा दिनकर (एम एस-14659एन) (एम आर-08475वाई), (एफ-26929जी), ए एम सी 13 जनवरी 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25-12-2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

जी रवीन्द्रनाथ,

ब्रिगेडियर

डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स.)



MINISTRY OF DEFENCE  
INTEGRATED HQ OF MOD (ARMY)

New Delhi, the 15th September 2007

No. 462, dated 23rd August 2007.—The president is pleased to make the following appointments:—

ARMY POSTAL SERVICE  
TEMPORARY COMMISSION

The undermentioned JCOs of the Army Postal Service Corps are granted temporary commission (on probation) with effect from the dates noted against each in the rank of Lieutenant under A1 29/85. Their temporary commission (on probation) is confirmed from the date consequent on the completion of the period of probations:—

Nb Sub KP Pradeep (JC-834522K) (Now TC-31577F), Lt, 18 Jul 2006

Nb Sub Ashok Hajeri (JC-834439M), (Now TC-31578K), Lt, 18 Jul 2006

Nb Sub Mahavir Singh (JC-834523M), (Now TC-31579M), Lt, 18 Jul 2006

Sub V Sudhakaran Nair (JC-834176Y), (Now TC-31580F), Lt, 18 Jul 2006

PRADEEP KUMAR,  
Under Secy.

No. 463, dated 24th August 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Substantive Subedar

Suh Kashmir Singh (JC-826126Y), 01 Nov 2006

Sub Ashok Kumar Pati (JC-826127F), 01 Dec 2006

Sub Dhanbir Gurung (JC-826128K), 01 Dec 2006

Sub Sher Bahadur Thapa (JC-826129M), 01 Dec 2006

Sub Vijay Singh (JC-826130F), 01 Feb 2007

Sub Parshuram Desai (JC-826131K), 02 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(date of seniority)

Sub Beant Singh (JC-826132M), 01 Apr 2007

To be Naib Subedar

BHM Jagdish Prasad (No. 2982409N now JC-826178A), 01 Dec 2006

BHM D S Bhandari (No. 1473130P now JC-826079X), 01 Dec 2006

BHM Kuldeep Singh (No. 13746820X now JC-826180M), 01 Dec 2006

BHM Pratap Singh (No. 2983729P now JC-826181P), 01 Feb 2007

BHM Hari Singh (No. 3984544W now JC-826182X), 01 Mar 2007

BHM Garasiya Lalit Mohan (No. 14909605P now JC-826183A), 02 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(date of seniority)

P.P. SINGH,  
Under Secy.

No. 464, dated 23rd August 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

(To be Substantive Subedar Major (GD))

Sub Jasbir Singh (JC-178992H), 01 Jun 2007

Sub C Ramanathan (JC-2806Y), 01 July 2007

Sub Avtar Singh (JC-173213L), 01 July 2007

Sub Paras Ram, SM (JC-188608K), 01 July 2007

(To be Substantive Subedar (GD))

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-841026L), 01 Jun 2007

Nb Sub Rajendra Kumar Thapa (JC-218580M), 01 July 2007

Nb Sub Bansi Lal (JC-194694W), 01 July 2007

Nb Sub Rohtas Singh (JC-468195H), 01 July 2007

Nb Sub Balbir Singh (JC-661084M), 01 July 2007

Nb Sub Om Prakash (JC-468199Y), 01 July 2007

Nb Sub Jaipal Singh (JC-238361M), 01 July 2007

Nb Sub Budhi Chand Sooraj (JC-578743Y), 01 July 2007

Nb Sub Paramjit Singh (JC-578077X), 01 July 2007

Nb Sub Man Bahadur Poon (JC-612125F), 01 July 2007

(To be Substantive Subedar (Clerk))

Nb Sub/Clk P Kandaswamy (JC-841483Y), 01 July 2007

PRADEEP KUMAR,  
Under Secy.

No. 465, dated 23rd August 2007.—The president is pleased to make the following appointments/Promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE SIKH LI

To be Subedar (GD)

Nb Sub Surinder Singh (JC-508771M), 01 Jul 2006

Nb Sub Gopal Krishan Singh (JC-509072N), 16 Jul 2006  
 Nb Sub Jasbir Singh (JC-509131P), 01 Sep 2006  
 Nb Sub Hardy Singh (JC-50884P), 01 Oct 2006  
 Nb Sub Roshan Singh (JC-508915K), 01 Oct 2006  
 Nb Sub Jagraj Singh (JC-509132X), 10 Oct 2006  
 Nb Sub Manjit Singh (JC-50816M), 01 Nov 2006  
 Nb Sub Baljit Singh (JC-508949X), 01 Nov 2006  
 Nb Sub Deshraj Singh Sodhi (JC-508950M), 01 Nov 2006  
 Nb Sub Baljit Singh (JC-509065X), 01 Nov 2006  
 Nb Sub Jasvir Singh (JC-509069N), 01 Dec 2006  
 Nb Sub Bikkar Singh (JC-509067H), 01 Dec 2006  
 Nb Sub Daljit Singh (JC-509036H), 01 Dec 2006  
 Nb Sub Kulwant Singh (JC-509080M), 25 Dec 2006  
 Nb Sub Gurjit Singh (JC-509236Y), 01 Jan 2007  
 Nb Sub Baljinder Singh (JC-509237F), 01 Jan 2007  
 Nb Sub Balbir Singh (JC-508981M), 01 Jan 2007  
 Nb Sub Roshan Singh (JC-508985H), 09 Jan 2007  
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-509058F), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Jarnail Singh (JC-509052A), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Karamjit Singh (JC-509194X), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Jasvir Singh (JC-509156F), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Tarsem Singh (JC-509146X), 06 Feb 2007

The Sikh Regiment

To be Subedar Major

Sub Mukhtiar Singh (JC-498426H), 08 Mar 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).  
 Sub/RT Harbhajan Singh (JC-117713W), 15 Feb 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj/RT wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Major (Musn)

Sub/Musn Lal Singh (JC-499184X), 01 Mar 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj/Musn wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

To be Subedars

Nb Sub Sukhminder Singh (JC-499051F), 08 Jan 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 24 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-499249A), 12 Feb 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 29 Oct 2006 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Sardul Singh (JC-499391K), 26 Jan 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 26 Dec 2006 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Gulab Singh (JC-499396H), 26 Jan 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 29 Dec 2006 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Balkar Singh (JC-499273W), 12 Feb 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Narinder Singh (JC-499310Y), 15 Jan 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Nishan Singh (JC-499313M), 15 Jan 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Gurmail Singh (JC-499392M), 15 Feb 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Jasbir Singh (JC-499361M), 15 Feb 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Gurnam Singh (JC-499437F), 02 Feb 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Kulwant Singh (JC-499315X), 08 Feb 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Gurmail Singh (JC-499317H), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Kewal Singh (JC-499389M), 22 Mar 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Baljinder Singh (JC-499358M), 03 Mar 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Gurbhej Singh (JC-499331P), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Kuldip Singh (JC-499332X), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Jaspal Singh (JC-499339F), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Amrik Singh (JC-499364A), 13 Mar 2007  
 \*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-499533W), 11 Mar 2007

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kewal Singh (JC-499509Y), 11 Mar 2007

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Clk

Nb Sub/Clk Kalminder Singh (JC-499455K), 08 Feb 2007

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Kuldeep Singh (No. 3385444A now JC-499808Y), 20 Mar 2007\*

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Satnam Singh (No. 3387926N now JC-499809F), 21 Mar 2007\*

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Balvir Singh (No. 3387612M now JC-499810W), 21 Mar 2007\*

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Dev Singh (No. 3386093H now JC-499811Y), 20 Mar 2007\*

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Balwinder Singh (No. 3387472L now JC-499812F), 15 Mar 2007\*

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Mann Singh (No. 3387465P now JC-499813K), 05 Apr 2007\*

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Lakhvinder Singh (No. 3387434P now JC-499814M), 02 Apr 2007\*

\*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Makhan Singh (No. 3386668M now JC-499815P), 01 Apr 2007

Hav Narinder Singh (No. 3386706X now JC-499816X), 01 Apr 2007

Hav Yadvender Singh (No. 3387858L now JC-499817A), 01 Apr 2007

Hav Balvinder Singh (No. 3387841X now JC-499818H), 01 Apr 2007

9 GR

To be Subedar Major

Rank, Name, JC No. and Date of Promotion

Sub Kamal Bahadur Adhikari (JC-629392Y), 10 Oct 2006/01 Jun 2006\$

Sub/Clk Mukh Ram Yadav (JC-629262W), 01 Jul 2006

Sub Yak Bahadur Thapa (JC-629387N), 13 Sep 2006/01 Sep 2006\$

Sub Dil Bahadur Khattri (JC-629377K), 01 Nov 2006

Sub Dan Bahadur Bhujel (JC-629383X), 01 Jan 2007

Sub/RT Sheskanta Sharma Ghimire (JC-122072Y), 01 Feb 2007

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances)

#### THE RAJPUT REGIMENT

To be Subedar Major Clk

Sub Maj/Clk Ram Baksh Singh (JC-478465A), 01 Feb 2007

To be Subedar Major

Sub Maj Digvijay Singh, SM (JC-478647N), 01 Mar 2007

Sub Maj Bhole Bahadur Singh (JC-478947P), 15 Mar 2007

Sub Maj Mahipal Singh (JC-478829F), 17 Mar 2007

To be Subedars Clk

Sub/Clk Tara Chand (JC-479317F), 01 Feb 2007

To be Subedars

Sub Rajeshwar Singh (JC-479368P), 01 Oct 2006

Sub Herumb Prasad Mishra (JC-479336M), 24 Sep 2006

Sub Virendra Singh (JC-479275A), 01 Oct 2006

Sub Rajendra Singh (JC-479389L), 01 Oct 2006

Sub Balwant Singh (JC-479445Y), 01 Oct 2006

Sub Shri Niwas Chaturvedi (JC-479491N), 01 Oct 2006

Sub Ram Prakash (JC-479323P), 01 Nov 2006

Sub Suwa Lal (JC-479515L), 01 Nov 2006

Sub Ompal Sharma (JC-479519W), 01 Nov 2006

Sub Sher Singh (JC-479540L), 01 Nov 2006

Sub Pyar Singh Yogi (JC-479343H), 01 Dec 2006

Sub Bir Pal (JC-479541N), 01 Dec 2006

Sub Hari Shanker Singh Chauhan (JC-479470X), 01 Dec 2006

Sub Ram Singh Gurjar (JC-479187H), 10 Dec 2006  
 Sub Balvinder Singh (JC-479361L), 10 Dec 2006  
 Sub Raj Kumar Singh (JC-479365F), 10 Dec 2006  
 Sub Dharm Pal (JC-479555M), 30 Dec 2006  
 Sub Tribhuvan Narayan Singh (JC-479270F), 01 Jan 2007  
 Sub Mitra Pal Singh (JC-479271K), 01 Jan 2007  
 Sub Samsuddin Ali Khan (JC-479339A), 01 Jan 2007  
 Sub Rajpal Singh (JC-479462Y), 01 Jan 2007  
 Sub Prahlad Singh (JC-479508W), 01 Jan 2007  
 Sub Karam Pal (JC-479569N), 01 Jan 2007  
 Sub Umesh Singh Solanki (JC-479574Y), 01 Jan 2007  
 Sub Rajveer Singh (JC-479559K), 08 Jan 2007  
 Sub Mohd Shakil Naqvi (JC-479372X), 18 Jan 2007  
 Sub Ram Chander Singh Rajawat (JC-479592F), 18 Jan 2007  
 Sub Man Mohan Singh (JC-479273P), 01 Feb 2007  
 Sub Yash Pal Singh (JC-479319M), 01 Feb 2007  
 Sub Jagram Singh (JC-479523L), 01 Feb 2007  
 Sub Tej Pal Singh (JC-479535A), 01 Feb 2007  
 Sub Raj Kumar Singh (JC-479536H), 01 Feb 2007  
 Sub Dil Bagh Singh (JC-479572N), 01 Feb 2007  
 Sub Riyasat Ali (JC-479320F), 01 Mar 2007  
 Sub Nariwan (JC-479344L), 01 Mar 2007  
 Sub Dhanesh Raj (JC-479265W), 10 Mar 2007  
 Sub Om Prakash (JC-479324X), 01 Apr 2007  
 Sub Rajbir Singh (JC-479370M), 01 Apr 2007

#### The Garhwal Rifles

##### To be Sub Maj

Sub Darmayan Singh (JC-529089H), 01 Jan 2007  
 Sub Harish Chandra (JC-528846A), 01 Mar 2007  
 Sub Vijender Singh, SM (JC-529001N), 01 Mar 2007

##### To be Sub Maj (Clk)

Sub/Clk Manbar Singh (JC-528685H), 02 Feb 2007

##### To be Sub

Nb Sub Bag Singh (JC-529662N), 01 Jun 2006  
 Nb Sub Kalam Singh (JC-529661L), 01 Sep 2006  
 Nb Sub Ashish Kumar (JC-529460M), 13 Oct 2006  
 Nb Sub Rajendra Singh (JC-529640P), 01 Nov 2006

Nb Sub Parvendar Singh (JC-529663W), 01 Dec 2006  
 Nb Sub Umesh Chander (JC-529742L), 01 Jan 2007  
 Nb Sub Rajendra Singh Bisht (JC-529728), 01 Jan 2007  
 Nb Sub Hari Singh Negi (JC-529774N), 01 Jan 2007  
 Nb Sub Jaspal Singh (JC-529773L), 01 Jan 2007  
 Nb Sub Indra Singh (JC-529723A), 01 Jan 2007  
 Nb Sub Jay Pal Singh (JC-529724H), 01 Jan 2007  
 Nb Sub Prem Singh (JC-529348A), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Mohan Singh (JC-529349H), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Nain Singh (JC-529461P), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Pushkar Singh (JC-529677W), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Bhupendra Singh (JC-529653M), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Trilok Singh (JC-529768A), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Pushkar Pal Singh (JC-529751M), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Jagdish Prasad (JC-529752P), 01 Feb 2007  
 Nb Sub Mathura Prasad (JC-529552Y), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Khusal Singh (JC-529583Y), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Laxman Singh (JC-529685P), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Man Mohan Singh (JC-529729F), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Mahesh Chandra (JC-529690A), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Madan Singh (JC-529691H), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Dhirender Singh (JC-529697K), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Harendra Singh (JC-529707H), 01 Mar 2007  
 Nb Sub Umed Singh (JC-529746F), 01 Mar 2007

##### To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Om Prakash Barthwal (JC-529582W), 01 Feb 2007

Nb Sub/Clk Tajwar Singh (JC-529590P), 01 Mar 2007

#### THE JAT REGIMENT

##### To be Sub

Nb Sub Bachchu Singh (JC-489218M), 01 Jun 2005\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Satya Narain (JC-489609X), 01 Jun 2006\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Dharam Pal (JC-489626X), 01 Oct 2005\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 23 Jul 2005 without effect on pay and allowances).  
 Nb Sub Gorkha Ram (JC-489479A), 24 Sep 2006\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Umed Singh (JC-489471N), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Raghbir Singh (JC-489411Y), 16 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bhim Singh Gujar (JC-489426F), 29 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bijender Singh (JC-489396P), 01 Jan 2006

Nb Sub Shiv Ram Singh (JC-489181W), 01 Feb 2006

Nb Sub Dilbag Singh (JC-489182Y), 07 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Singh Siddhu (JC-489363K), 01 Feb 2006

Nb Sub Ghamandi Lal (JC-489406N), 01 Feb 2006

Nb Sub Raja (JC-489443F), 01 Feb 2006

Nb Sub Satrup Singh (JC-489483H), 01 June 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Samundra Singh (JC-489493M), 23 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajbir (JC-489175H), 06 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dharam Pal (JC-489327Y), 04 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satyawar (JC-489184K), 01 Mar 2006

Nb Sub Inder Singh (JC-489290H), 01 Mar 2006

Nb Sub Ramesh Chand (JC-489312W), 01 Mar 2006

Nb Sub Pale Ram (JC-489445M), 01 Mar 2006

Nb Sub Vidyadhar Singh (JC-489455W), 22 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Janakbir Singh (JC-489556K), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Dhari (JC-489564H), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balwan Singh (JC-489463P), 07 Mar 2006

Nb Sub Mohan Lal (JC-489482A), 16 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 07 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Om Prakash (JC-489199M), 09 Mar 2006

Nb Sub Sharwan Kumar (JC-489431M), 09 Mar 2006

Nb Sub Ramjeth Singh (JC-489191A), 01 Apr 2006

Nb Sub Top Singh (JC-489274L), 01 Apr 2006

Nb Sub Umesh Chand (JC-489328F), 05 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satbir Singh (JC-489313Y), 01 Apr 2006

Nb Sub Babu Lal (JC-489334P), 05 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Autar Singh (JC-489432P), 25 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mangu Ram (JC-489364M), 01 Apr 2006

Nb Sub Hoshiyar Singh (JC-489388W), 01 Apr 2006

Nb Sub Balwant Singh (JC-489389Y), 01 Apr 2006

Nb Sub Rameshwar Lal (JC-489416X), 24 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Girdhari Ram (JC-489559X), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Anand Singh (JC-489495X), 27 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sis Pal Singh (JC-489496A), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hawa Singh (JC-489524F), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Room Singh (JC-489434A), 04 Apr 2006

Nb Sub Shri Krishan (JC-489404H), 05 Apr 2006

Nb Sub Bhaker Ram (JC-489435H), 10 Apr 2006

Nb Sub Vijay Pal (JC-489467L), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 10 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Vikram Singh (JC-489472W), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 28 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jagbir Singh (JC-489192H), 14 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Maha Singh (JC-489268Y), 01 May 2006

Nb Sub Hawa Singh Bhooria (JC-489464X), 01 May 2006

Nb Sub Punjab Singh (JC-489390N), 01 May 2006

Nb Sub Dinesh Kumar (JC-489417A), 11 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shish Pal (JC-489485N), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Vijay Kumar (JC-489489F), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ranveer Singh Jat (JC-489610M), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mahendra Singh (JC-489193L), 01 Jun 2006

Nb Sub Bhanwar Lal Jat (JC-489407W), 04 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baldev Singh (JC-489553W), 01 Jun 2006

Nb Sub Rajbir Singh (JC-489486W), 12 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Prem Chand (JC-489488F), 01 Jun 2006

Nb Sub Rattan Singh (JC-489596L), 01 Jun 2006

Nb Sub Dharmender Singh (JC-489640K), 01 Jun 2006

Nb Sub Narayan Lal (JC-489286A), 13 Jun 2006

Nb Sub Babu Rama (JC-489408Y), 16 Jun 2006

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Yash Pal Singh (JC-488886W), 01 Oct 2006

Nb Sub/Clk Hukma Ram Karir (JC-488995H), 01 Oct 2006

Nb Sub/Clk Baljor Singh (JC-488996L), 01 Oct 2006

Nb Sub/Clk Balraj Singh Tongria (JC-489019Y), 01 Oct 2006

Nb Sub/Clk Kamal Singh (JC-489028A), 01 Jan 2007

Nb Sub/Clk Chhattar Singh Sheoran (JC-489034N), 01 Jan 2007

Nb Sub/Clk Shesh Kumar Singh Kushwaha (JC-489046H), 01 Feb 2007

Nb Sub/Clk Mange Ram (JC-489060P), 01 Feb 2007

Nb Sub/Clk Sube Singh (JC-489079N), 01 Mar 2007

Nb Sub/Clk Basau Ram (JC-489086K), 01 Mar 2007

The Jat Regiment

To be Nb Sub

Hav Ramphal Singh (No. 3178574W now JC-490051A), 13 Mar 2007

Hav Anil Kumar (No. 3174606K now JC-490052H), 01 Apr 2007

Hav Lila Ram (No. 3179032Y now JC-490053L), 01 Apr 2007

Hav Jagdish Prasad Yadav (No. 3179105A now JC-490054N), 01 Apr 2007

Hav Shri Ram (No. 3178447F now JC-490055W), 19 Apr 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Harpal Singh, SM (No. 3179371Y now JC-490056Y), 01 Apr 2007

Hav Nemi Chand Kulhari (No. 3182302N now JC-490057F), 04 Apr 2007

Hav Inderpal Singh (No. 3177837X now JC-490058K), 01 May 2007

Hav Yogendra Singh (No. 3177839H now JC-490059M), 01 May 2007

Hav Vijender Kumar (No. 3179690L now JC-490060F), 01 May 2007

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Raj Kumar (No. 3178089F now JC-490061K), 01 May 2007

Hav/Clk Amar Bhatnagar (No. 3178095P now JC-490062M), 01 May 2007

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Arun Sawant (JC-226181X), 26 Oct 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Umed Singh (JC-489471N), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Raghbir Singh (JC-489411Y), 16 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bhim Singh Gujar (JC-489426F), 29 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bijender Singh (JC-489396P), 01 Jan 2006

Nb Sub Shiv Ram Singh (JC-489181W), 01 Feb 2006

Nb Sub Dilbag Singh (JC-489182Y), 07 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Singh Siddhu (JC-489363K), 01 Feb 2006

Nb Sub Ghamandi Lal (JC-489406N), 01 Feb 2006

Nb Sub Raja (JC-489443F), 01 Feb 2006

Nb Sub Satrup Singh (JC-489483H), 01 June 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Samundra Singh (JC-489493M), 23 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajbir (JC-489175H), 06 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dharam Pal (JC-489327Y), 04 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satyawar (JC-489184K), 01 Mar 2006

Nb Sub Inder Singh (JC-489290H), 01 Mar 2006

Nb Sub Ramesh Chand (JC-489312W), 01 Mar 2006

Nb Sub Pale Ram (JC-489445M), 01 Mar 2006

Nb Sub Vidyadhar Singh (JC-489455W), 22 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Janakbir Singh (JC-489556K), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ram Dhari (JC-489564H), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balwan Singh (JC-489463P), 07 Mar 2006

Nb Sub Mohan Lal (JC-489482A), 16 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 07 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Om Prakash (JC-489199M), 09 Mar 2006

Nb Sub Sharwan Kumar (JC-489431M), 09 Mar 2006

Nb Sub Ramjeth Singh (JC-489191A), 01 Apr 2006

Nb Sub Top Singh (JC-489274L), 01 Apr 2006

Nb Sub Umesh Chand (JC-489328F), 05 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satbir Singh (JC-489313Y), 01 Apr 2006

Nb Sub Babu Lal (JC-489334P), 05 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Autar Singh (JC-489432P), 25 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mangu Ram (JC-489364M), 01 Apr 2006

Nb Sub Hoshiyar Singh (JC-489388W), 01 Apr 2006

Nb Sub Balwant Singh (JC-489389Y), 01 Apr 2006

Nb Sub Rameshwar Lal (JC-489416X), 24 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Girdhari Ram (JC-489559X), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Anand Singh (JC-489495X), 27 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sis Pal Singh (JC-489496A), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hawa Singh (JC-489524F), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Room Singh (JC-489434A), 04 Apr 2006

Nb Sub Shri Krishan (JC-489404H), 05 Apr 2006

Nb Sub Bhaker Ram (JC-489435H), 10 Apr 2006

Nb Sub Vijay Pal (JC-489467L), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 10 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Vikram Singh (JC-489472W), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 28 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jagbir Singh (JC-489192H), 14 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Maha Singh (JC-489268Y), 01 May 2006

Nb Sub Hawa Singh Bhooria (JC-489464X), 01 May 2006

Nb Sub Punjab Singh (JC-489390N), 01 May 2006

Nb Sub Dinesh Kumar (JC-489417A), 11 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shish Pal (JC-489485N), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Vijay Kumar (JC-489489F), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ranveer Singh Jat (JC-489610M), 01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mahendra Singh (JC-489193L), 01 Jun 2006

Nb Sub Bhanwar Lal Jat (JC-489407W), 04 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baldev Singh (JC-489553W), 01 Jun 2006

Nb Sub Rajbir Singh (JC-489486W), 12 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Prem Chand (JC-489488F), 01 Jun 2006

Nb Sub Rattan Singh (JC-489596L), 01 Jun 2006

Nb Sub Dharmender Singh (JC-489640K), 01 Jun 2006

Nb Sub Narayan Lal (JC-489286A), 13 Jun 2006

Nb Sub Babu Rama (JC-489408Y), 16 Jun 2006

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Yash Pal Singh (JC-488886W), 01 Oct 2006

Nb Sub/Clk Hukma Ram Karir (JC-488995H), 01 Oct 2006

Nb Sub/Clk Baljor Singh (JC-488996L), 01 Oct 2006

Nb Sub/Clk Balraj Singh Tongria (JC-489019Y), 01 Oct 2006

Nb Sub/Clk Kamal Singh (JC-489028A), 01 Jan 2007

Nb Sub/Clk Chhattar Singh Sheoran (JC-489034N), 01 Jan 2007

Nb Sub/Clk Shesh Kumar Singh Kushwaha (JC-489046H), 01 Feb 2007

Nb Sub/Clk Mange Ram (JC-489060P), 01 Feb 2007

Nb Sub/Clk Sube Singh (JC-489079N), 01 Mar 2007

Nb Sub/Clk Basau Ram (JC-489086K), 01 Mar 2007

The Jat Regiment

To be Nb Sub

Hav Ramphal Singh (No. 3178574W now JC-490051A), 13 Mar 2007

Hav Anil Kumar (No. 3174606K now JC-490052H), 01 Apr 2007

Hav Lila Ram (No. 3179032Y now JC-490053L), 01 Apr 2007 ✓

Hav Jagdish Prasad Yadav (No. 3179105A now JC-490054N), 01 Apr 2007

Hav Shri Ram (No. 3178447F now JC-490055W), 19 Apr 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Harpal Singh, SM (No. 3179371Y now JC-490056Y), 01 Apr 2007

Hav Nemi Chand Kulhari (No. 3182302N now JC-490057F), 04 Apr 2007

Hav Inderpal Singh (No. 3177837X now JC-490058K), 01 May 2007

Hav Yogendra Singh (No. 3177839H now JC-490059M), 01 May 2007

Hav Vijender Kumar (No. 3179690L now JC-490060F), 01 May 2007

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Raj Kumar (No. 3178089F now JC-490061K), 01 May 2007

Hav/Clk Amar Bhatnagar (No. 3178095P now JC-490062M), 01 May 2007

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Arun Sawant (JC-226181X), 26 Oct 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).



Sub Fakira Nabagekar (JC-458077F), 01 Apr 2007\*

Sub Gaikawad Mansing Waman (JC-458324K), 01 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

To be Sub

Nb Sub Patil Rajaram Mayapa (JC-459186A), 25 Feb 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mane Ankush Gopala (JC-459209W), 30 Mar 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Todkar Patangrao Vasant (JC-459008X), 01 Mar 2007

Nb Sub Gangadharappa TB (JC-459127N), 01 Mar 2007

Nb Sub Savekar Ashok Shankar (JC-459082Y), 02 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nimat Avinash Shankar (JC-459146Y), 01 Apr 2007

To be Sub Clk

Nb Sub/Clk Nirbhey Chand (JC-459123X), 01 Apr 2007

To be Nb Sub

Hav Tukaram Shinde (No. 2786918A now JC-459692L), 11 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Gat Rajaram Vitthal (No. 2786978P now JC-459693N), 11 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Krishna Ananda (No. 2786998H now JC-459694W), 28 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Pingle Anandrao Ramchandra (No. 2779634M now JC-459695Y), 11 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Nale Arjun Haribhau (No. 2782767P now JC-459696F), 23 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Salunke Dilip Keshav (No. 2784178X now JC-459697K), 13 Mar 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Gorule Sanjay Santram (No. 2782918H now JC-459698M), 16 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Shivaji Raghunath (No. 2782502L now JC-459700Y), 26 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Bharat Pandurang (No. 2786168M now JC-459701F), 13 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Raja A (No. 2786698F now JC-459702K), 01 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Edake Suresh Maruti (No. 4071541K now JC-459703M), 01 May 2007

Hav Rahane Machhindra Ravan (No. 2786493M now JC-459704P), 01 May 2007\*

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Mushtak Ahmad (No. 2780205Y now JC-459699P), 23 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Mohd Altaf (No. 2783064A now JC-459705X), 17 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Malewar Vijay Kumar Boburao (No. 2786589P now JC-459706A), 28 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Wagh Bhagwan Sarjerao (No. 2784114M now JC-459707H), 16 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Haribhau Tanaji (No. 2783994F now JC-459708L), 25 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 16 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Madhukar Ganapati (No. 2785682K now JC-459709N), 25 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 16 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Changapa Patil (No. 2785695F now JC-459710H), 01 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Shaikh Nanne Saheb (No. 4183284Y now JC-459711L), 08 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 06 May 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Shashikant Gawade (No. 2783586W now JC-459712N), 17 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 09 May 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Veerayya Hiremath (No. 2784204N now JC-459713W), 01 Jun 2007

Hav Mohd Ashraf Shiekh, SM (No. 2782279M now JC-459714Y), 01 Jun 2007

#### The Dogra Regiment

##### To be Sub Maj

Sub Ram Sarup (519246W), 03 May 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 May 2007 without effect on Pay & Allowances)

##### To be Sub

Nb Sub Subhash Chand (JC-520011W), 01 Mar 2007

Nb Sub Baldip Raj (JC-520125F), 07 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Suresh Kumar Rana (JC-519785M), 03 May 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Dev Raj Dogra (JC-519876W), 03 May 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Khem Chand (JC-520012Y), 01 Apr 2007

Nb Sub Anil Vijay (JC-520017X), 01 Apr 2007

##### To be Sub/Clk

Nb Sub/Clk Subhash Chander (JC-520028K), 02 Apr 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

##### To be Sub Maj

Sub Shamsher Singh (JC-518956F), 09 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Sub Som Datt Sharma (JC-519159H), 05 Apr 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Sub Ashwani Kumar Sharma (JC-519230L), 05 Apr 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

##### To be Sub

Nb Sub Rachpal Singh (JC-519984A), 01 Jun 2006

Nb Sub Karam Chand (JC-519931F), 13 Jan 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2006 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-519959F), 03 Feb 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2006 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Hoshiar Singh (JC-519961Y), 01 Oct 2006

Nb Sub Kalyan Singh Manhas (JC-519963K), 07 Dec 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 26 Nov 2006 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Hushiar Singh (JC-520001M), 01 Dec 2006

Nb Sub Ram Singh (JC-519794N), 26 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Tilak Raj (JC-519795W), 26 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-519941L), 23 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Nasib Chand (JC-519975Y), 24 Feb 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Vijay Kumar (JC-520042W), 01 Feb 2007

Nb Sub Chaman Lal (JC-519867P), 01 Mar 2007

Nb Sub Ram Phal (519868X), 01 Mar 2007

Nb Sub Raj Mal Thakur (JC-519938L), 11 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Sarwan Singh (JC-519920P), 01 Mar 2007

Nb Sub Ram Singh (JC-519942N), 01 Mar 2007

Nb Sub Ramesh Chand Rana (JC-519945F), 15 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Pawan Kumar (JC-519969L), 01 Mar 2007

Nb Sub Diljit Singh (JC-519980K), 16 Apr 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Vir Singh (JC-519852M), 14 Apr 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Virender Kumar (JC-520016P), 01 Apr 2007

Nb Sub Ashok Kumar (JC-520031K), 01 Apr 2007

To be Sub/Clk

Nb Sub/Clk Kashmir Singh (519955L), 01 Feb 2007

To be Nb Sub

Hav Balwant Singh (No. 3986983A now JC-520496K), 07 Jan 2007

Hav Prem Sagar (No. 3987010W now JC-520497M), 09 Feb 2007

Hav Labh Singh (No. 3987733L now JC-520498P), 01 Mar 2007

Hav Sewa Ram (No. 3987879Y now JC-520499X), 01 Apr 2007

Hav Mehar Chand (No. 3987991L now JC-520500F), 01 May 2007

Hav Rachhpal Chand (No. 3984685L now JC-520543W), 14 Mar 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 15 Dec 2006 without effect on Pay & Allowances)

Hav Anchal Singh (No. 3986278F now JC-520544Y), 22 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 26 Jan 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Jag Raj (No. 3986436L now JC-520545F), 26 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 29 Jan 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Rounk Singh (No. 3987103L now JC-520546K), 12 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Udham Singh (No. 3984628L now JC-520547M), 22 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 23 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Joginder Singh (No. 3984340K now JC-520548P), 19 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Ashwani Kumar Supahiya (No. 3983802Y now JC-520549X), 11 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Suresh Chand (No. 3983907H now JC-520550M), 11 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 May 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Suresh Kumar (No. 3987594M now JC-520551P), 01 Apr 2007

Hav Karnail Singh (No. 3985137A now JC-520552X), 22 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Kishori Lal (No. 3984596M now JC-520553A), 05 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Kewal Krishan (No. 3984856M now JC-520554H), 05 Jun 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Balwant Singh (No. 3983933K now JC-520555L), 18 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Lakhbir Singh (No. 3987890X now JC-520556N), 22 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 3987920K now JC-520557W), 22 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2007 without effect on Pay & Allowances)

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Jyoti Bose (No. 3985790N now JC-520558Y), 01 May 2007

## To be Nb Sub

Hav Som Nath (No. 3988442X now JC-520501K), 17 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 09 Dec 2006 without effect on Pay & Allowances)\*

Hav Parkash Chand Dogra (No. 3984017P now JC-520502M), 25 Dec 2006

Hav Mubarkh Singh (No. 3986863F now JC-520503P), 23 Feb 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17 Jan 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Udham Singh (No. 3984659K now JC-520504X), 24 Jan 2007

Hav Dharam Pal (No. 3985127W now JC-520505A), 13 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 31 Jan 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Romesh Singh (No. 3985243Y now JC-520506H), 15 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Gurdas Mal (No. 3983935P now JC-520507L), 01 Mar 2007

Hav Balbir Singh (No. 3985361M now JC-520508N), 20 Mar 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Parminder Katoch (No. 13617355Y now JC-520509W), 02 Mar 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Baldev Raj (No. 3987215L now JC-520510L), 02 Mar 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Raghur Singh (No. 3985552F now JC-520511N), 14 Mar 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Parshotam Ram (No. 3987250N now JC-520512W), 02 Mar 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Ram Lal (No. 3983716N now JC-520513Y), 17 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Basant Kumar (No. 3986174A now JC-520514F), 13 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Parshotam Kumar (No. 13616376H now JC-520515K), 01 Apr 2007

Hav Des Raj (No. 3985694Y now JC-520516M), 01 Apr 2007

Hav Rajender Singh (No. 3983791X now JC-520517P), 17 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Dharam Singh (No. 3984380L now JC-520518X), 20 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 3984695P now JC-520519A), 01 Apr 2007

Hav Shakti Singh (No. 3985575H now JC-520520P), 01 Apr 2007

Hav Mul Raj (No. 3984217X now JC-520521X), 17 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Bhim Singh (No. 3984272F now JC-520522A), 07 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Baljit Singh (No. 3985588A now JC-520523H), 13 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Krishan Singh (No. 3391184W now JC-520524L), 01 Apr 2007

Hav Paramjit Singh (No. 3391185Y now JC-520525N), 01 Apr 2007

Hav Vijay Kumar (No. 3391186F now JC-520526W), 13 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Pushvinder Singh (No. 4358884A now JC-520527Y), 05 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Jagdeep Singh (No. 3987830H now JC-520528F), 05 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Sham Lal (No. 3987871M now JC-520529K), 05 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Jagdev Singh (No. 3986343W now JC-520530Y), 13 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Balvinder Singh (No. 3986649Y now JC-520531F), 13 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Rum Singh (No. 3988189F now JC-520532K), 16 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Santosh Kumar (No. 3986705M now JC-520533M), 13 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Shankar Dass (No. 3986719M now JC-520534P), 30 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Shamsher Singh (No. 3983607F now JC-520535X), 01 Apr 2007

Hav Niratak Singh (No. 3983635N now JC-520536A), 06 Apr 2007

Hav Daleep Singh (No. 3983664H now JC-520537H), 06 Apr 2007

Hav Durga Singh (No. 3984726K now JC-520538L), 10 Apr 2007

Hav Kuldeep Singh (No. 3985143N now JC-520539N), 12 Apr 2007

Hav Darshan Kumar (No. 3985190L now JC-520540H), 04 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Anil Kumar Sharma (No. 3988121A now JC-520541L), 01 May 2007

Hav Kulbir Singh (No. 3983663A now JC-520542N), 01 May 2007

Hav Om Parkash (No. 3983616H now JC-520489N), 24 Feb 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Basant Singh (No. 3983691M now JC-520490H), 24 Feb 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Sucha Singh (No. 3991372P now JC-520491L), 12 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Kuldeep Singh (No. 3987884K now JC-520492N), 09 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Dharam Chand (No. 3983713A now JC-520493W), 06 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on Pay & Allowances)

Hav Chand Lal (No. 3987589F now JC-520494Y), 01 Apr 2007

Hav Yash Pal Singh (No. 3985877P now JC-520495F), 01 Apr 2007

#### The Madras Regiment

##### To be Subedar

Nb Sub Bongu Papa Rao (JC-439284Y), 29 Jul 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ramesh C (JC-439111F), 10 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allces)

Nb Sub G Jerold Devasahayam (JC-439077M), 01 Jan 2007

Nb Sub C Chandrasekaran (JC-439096X), 23 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Radhakrishnan B (JC-439264L), 05 Mar 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Manikantan Nair M (JC-439227X), 01 Mar 2007

Nb Sub Haridasan K (JC-439378W), 05 Mar 2007

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allces)

Nb Sub Pandira Poina Polu Raju (JC-439380N), 01 Apr 2007

Nb Sub Pandiaraj G (JC-439440X), 01 Apr 2007

Nb Sub S Manimaran Govindasamy (JC-439423X), 01 Apr 2007

Nb Sub Manikantan Chettiar (JC-439437X), 01 Apr 2007

##### To be Subedar (Clerk)

Nb Sub/Clk Jayadharan Pillai B (JC-439298Y), 12 Mar 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub/Clk wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub/Clk Augustine PG (JC-439299F), 14 Apr 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub/Clk wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

##### To be Subedar

Nb Sub Sebastian PM (JC-439247L), 24 Mar 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allces)

Nb Sub Mekala Nagaraja Reddy (JC-439374A), 25 Mar 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Prakash KK (JC-439221W), 04 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub GV Prabakar Rao (JC-439375H), 08 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Mallappa Chanappa Hosakoti (JC-439281L), 01 Apr 2007  
 Nb Sub Siva Kumar C (JC-439283W), 01 Apr 2007  
 Nb Sub Ganapathy AM (JC-439249W), 01 Apr 2007  
 Nb Sub Sathesh Kumar AK (JC-439055N), 04 Mar 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allces) -  
 Nb Sub Gandhi Ramu Naidu (JC-439191K), 01 Apr 2007  
 Nb Sub Murali K (JC-439367K), 04 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Ramaling Sali (JC-439405P), 08 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub P Parasuraman (JC-439396Y), 01 Apr 2007  
 Nb Sub Ganasekhar S (JC-439414W), 08 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Ashok Gangappa Mokannavar (JC-439400W), 03 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Jeeru Anandha Rao (JC-439338P), 07 May 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Raju MR (JC-439163X), 09 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Radhakrishnan G (JC-439169Y), 30 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub G Raman (JC-439240F), 09 Mar 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Sidda Venkata Neelachalam (JC-439222Y), 02 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Kumara LB (JC-439386P), 30 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

To be Subedar Major

Sub Rajendra Mohan N (JC-205859M), 02 Jan 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allces)  
 Sub Krishnan C (JC-438134W), 01 Feb 2007

Sub Subburaj PA (JC-438138M), 01 Mar 2007  
 Sub Tomy NJ (JC-438629H), 01 Mar 2007  
 Sub Basheer N (JC-438222M), 01 Apr 2007  
 Sub Varghese PG (JC-518918L), 01 Apr 2007 ✓

To be Subedar

Nb Sub Sadanandan PR (JC-439177X), 01 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub RS Shanmugam (JC-439115X), 10 Feb 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Babu Kuttan K (JC-439345L), 30 Mar 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Prasannan Pillal B (JC-439321F), 01 Apr 2007  
 Nb Sub K Peria Pandi (JC-439377N), 01 Apr 2007  
 Nb Sub Bhat Anant (JC-439434X), 01 Apr 2007  
 Nb Sub M Anki Reddy (JC-439481F), 01 Apr 2007  
 Nb Sub M Alexander (JC-439214A), 24 Feb 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Ravi Kumar KR (JC-439150A), 24 Mar 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Dharma Rao Saini (JC-439179H), 13 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Jayasankaran TU (JC-439212P), 01 Apr 2007  
 Nb Sub Mahendran Reddy (JC-439251N), 01 Apr 2007  
 Nb Sub Nandikunta Sankar Reddy (JC-439294H), 03 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub C Prabhakaran (JC-439365Y), 01 Apr 2007  
 Nb Sub Malatheshappa D (JC-438984A), 21 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub G Ravi (JC-439139F), 20 Mar 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 11 Jan 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Sree Kumar S (JC-439140W), 20 Mar 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Ravichandran K (JC-439201H), 22 Mar 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub S Buchi Reddy (JC-439275X), 11 Apr 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub R Devaraj (JC-439286K), 13 Apr 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

#### THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Tejpal Singh (No. 8031594Y now JC-450222Y), 23 Jul 2006

Hav Prem Pal (No. 2687872A now JC-450223F), 14 Aug 2006

Hav Harun Khan (No. 2680783Y now JC-450224K), 01 Sep 2006

Hav Netra Pal (No. 268056Y now JC-450225M), 16 Sep 2006

Hav Balbir Singh (No. 2680563P now JC-450226P), 21 Sep 2006

Hav Saitan Singh Pratihar (No. 2683051N now JC-450227X), 28 Sep 2006

Hav Kheta Ram Gurjar (No. 2679870A now JC-450228A), 01 Oct 2006

Hav Sanwar Mal (No. 2676369H now JC-450229H), 01 Oct 2006

Hav Jeew Raj Singh (No. 2678548F now JC-450230X), 01 Oct 2006

Hav Rajender Singh (No. 2678199H now JC-450231A), 01 Oct 2006

Hav Tilk Raj (No. 2678012L now JC-450232H), 01 Oct 2006

Hav Rajbir Singh (No. 2680617L now JC-450233L), 01 Oct 2006

Hav Mohmood Ahmed Khan (No. 2678744F now JC-450234N), 01 Oct 2006

Hav Samsheer Khan (No. 2679735M now JC-450235W), 20 Jan 2007

(Gtd seniority wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allces)

Hav Suwa Kathat (No. 2679343Y now JC-450236Y), 01 Oct 2006

Hav Jaspal Singh (No. 2680510W now JC-450237F), 01 Oct 2006

To be Nb Sub

Hav Ashok Kumar (No. 2680760X now JC-450238K), 01 Oct 2006

Hav Subhash Singh (No. 2679313F now JC-450239M), 10 Oct 2006

(Gtd seniority wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allces)

Hav Balwan Singh (No. 2679980P now JC-450240F), 01 Oct 2006

Hav Tilak Raj (No. 2680369A now JC-450241K), 01 Oct 2006

Hav Chaman Lal (No. 2680488W now JC-450242M), 01 Oct 2006

Hav Ranjit Singh (No. 2680683N now JC-450243P), 01 Oct 2006

Hav Hem Raj (No. 2680574F now JC-450244X), 03 Oct 2006

Hav Ranbir Singh (No. 2680581X now JC-450245A), 03 Oct 2006

Hav Som Dutt (No. 2680634L now JC-450246H), 15 Dec 2006

(Gtd seniority wef 03 Oct 2006 without effect on pay and allces)

Hav Jagdish Prasad (No. 2680415K now JC-450247L), 04 Oct 2006

Hav Kehar Singh (No. 2678021M now JC-450248N), 04 Oct 2006

Hav Karan Singh (No. 2678362X now JC-450249W), 15 Oct 2006

Hav Jeet Singh (No. 2681303W now JC-450250L), 31 Oct 2006

4 GR

To be Naib Subedar

Hav Ganesh Bahadur Rana (No. 5345324L now JC-612672W), 26 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2006)

Hav Chin Bahadur Buduja Pun (No. 5346436X now JC-612673Y), 26 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Apr 2006)

Hav Durga Bahadur Thapa (No. 5346471A now JC-612674F), 16 May 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 28 Apr 2006)

Hav Arpan Thapa (No. 5345821P now JC-612675K), 20 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 07 Jun 2006)

Hav/Cik Suresh Chandra (No. 5345570W now JC-612676M), 01 Sep 2006

Hav Padam Bahadur Gurung (No. 5346495K now JC-612677P), 30 Sep 2006

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 04 Aug 2006)

Hav Raj Man Pun (No. 5346553H now JC-612678X), 01 Oct 2006

Hav Chhabi Lal Thapa (No. 5345290H now JC-612679A),  
31 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2006)

Hav Kamal Thakur (No. 5345422L now JC-612680P),  
01 Oct 2006

Hav Mahendra Kumar Shrestha (No. 5345844W now JC-612681X), 13 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2006)

Hav Juddha Bahadur Rana (No. 5345474F now JC-612682A), 11 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2006)

Hav Rudra Bahadur Alley (No. 5346675M now JC-612683H), 15 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 13 Oct 2006)

Hav Bhim Singh (No. 5345230N now JC-612684L), 01 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Sep 2006)

Hav Sunil Kumar Gurung (No. 5345729N now JC-612685N), 06 Oct 2006

Hav Mohani Lal Neupane (No. 5345855H now JC-612686W), 22 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Nov 2006)

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Sheri Ram (No. 4179469H now JC-540136P), 13 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect pay and allowances).

Hav Dev Singh Rawal (No. 4179407H now JC-540137X),  
13 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect pay and allowances).

Hav Govind Singh (No. 4179428Y now JC-540138A),  
13 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect pay and allowances).

Hav Chandra Singh (No. 4179621L now JC-540139H),  
13 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect pay and allowances).

Hav Shri Pal Singh (No. 7430620A now JC-540135M),  
24 Mar 2007/01 Mar 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect pay and allowances).

Hav Satya Prakash (No. 4181144N now JC-540140X),  
02 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect pay and allowances).

Hav Satveer Singh Yadav (No. 4181224L now JC-540141A), 02 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect pay and allowances).

Hav Mahendra Kumar Yadav (No. 4190442L now JC-540142H), 01 Apr 2007

Hav Prem Singh Yadav (No. 4181322L now JC-540143L),  
01 Apr 2007

Hav Rakesh Kumar (No. 4182263W now JC-540144N),  
01 Apr 2007

Hav Raj Kumar (No. 4178040F now JC-540145W), 05 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect pay and allowances).

Hav Chanchal Singh Jarmal (No. 4178368H now JC-540146Y), 01 Apr 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect pay and allowances).

#### NAGA REGIMENT

Hav Gopal Dutt (No. 14702133X now JC-590201A),  
01 Apr 2007

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Shiv Kumar (No. 4180457A now JC-540148K),  
01 May 2007

Hav Bhupal Singh Bisht (No. 4179136W now JC-540147F), 01 May 2007

Hav Banshi Ram (No. 14701556Y now JC-540151K),  
28 Apr 2007/01 Apr 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect pay and allowances).

Hav Mahesh Chandra Singh (No. 4184900A now JC-540152M), 08 May 2007/01 May 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect pay and allowances).

Hav Raghunath Singh (No. 4179698N now JC-540153P),  
09 May 2007/01 May 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect pay and allowances).



Hav Jagdish Chandra Pandey (No. 4181133F now JC-540154X), 09 May 2007/01 May 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect pay and allowances).

Hav Awadh Kishore (No. 4176944H now JC-540149M), 01 May 2007

Hav Kundal Singh (No. 4179647A now JC-540155A), 01 Apr 2007

Hav Dharam Singh (No. 4177894P now JC-540156H), 01 Apr 2007

Hav Ramesh Kumar (No. 4180614F now JC-540157L), 07 May 2007/01 May 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect pay and allowances).

Hav Bhupal Singh (No. 4179026F now JC-540158N), 01 May 2007

Hav Bishan Singh Kaira (No. 4179094P now JC-540159W), 01 May 2007

#### THE NAGA REGIMENT

Hav Bhim Bahadur Gurung (No. 14701858L now JC-590201A), 06 Mar 2007/19 Feb 2007\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Feb 2007 without effect pay and allowances).

#### THE PUNJAB REGIMENT

##### To be Naib Subedars

Hav Baldev Singh (No. 2478128X now JC-430122M), 01 Sep 2006

Hav Ramesh Singh (No. 2475687W now JC-430115W), 20 Jan 2007

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Balbinder Singh (No. 2479447W now JC-430116Y), 05 Feb 2007\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Dec 2006 without effect pay and allowances).

Hav Kuldip Singh (No. 2476360K now JC-430123P), 13 Feb 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2006 without effect pay and allowances).

Hav Nirmal Singh (No. 2478647A now JC-430117F), 16 Jan 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2007 without effect pay and allowances).

Hav Maher Singh (No. 2474889L), now JC-430118K), 20 Jan 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2007 without effect pay and allowances).

Hav Lakhwinder Singh (No. 2478735W now JC-430124X), 21 Feb 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2007 without effect pay and allowances).

Hav Hira Lal (No. 2480756L now JC-430125A), 28 Feb 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2007 without effect pay and allowances).

Hav Gurnam Singh (No. 2480275Y now JC-430126H), 14 Feb 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2007 without effect pay and allowances).

Hav Surinder Paul (No. 2474969H now JC-430127L), 22 Feb 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2007 without effect pay and allowances).

Hav Pratap Singh (No. 2475000F now JC-430128N), 22 Feb 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2007 without effect pay and allowances).

Hav Ramesh Chand Agan (No. 2479703A now JC-430119M), 05 Feb 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2007 without effect pay and allowances).

Hav Joginder Singh (No. 2475670H now JC-430120F), 01 Feb 2007

Hav Bawa Singh (No. 2476273W now JC-430129W), 23 Feb 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 21 Feb 2007 without effect pay and allowances).

Hav Jagtar Singh (No. 2479260K now JC-430130L), 07 Mar 2007\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2007 without effect pay and allowances).

Hav Tarsem Singh (No. 2478995F now JC-430131N), 01 Mar 2007

Hav Subhash Chand (No. 2474644P now JC-430132W), 01 Mar 2007

Hav Tarlok Chand (No. 2474655F now JC-430133Y), 01 Mar 2007

8 GR

##### To be Nb Sub (GD)

Hav Raj Bahadur Rana (No. 5751984M now JC-623757M), 12 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Om Narayan Shrestha (No. 5751879W now JC-623780M), 01 Apr 2007

Hav Ser Bahadur Gurung (No. 5752011H now JC-623762X), 28 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Sun Bahadur Gurung (No. 5751221W now JC-623763A), 07 May 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Laxman Thapa (No. 5751813A now JC-623750H), 20 Mar 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Kharka Bahadur Pun (No. 5751306M now JC-623758P), 01 Mar 2007

Hav Yam Bahadur Thapa (No. 5751821Y now JC-623759X), 01 Mar 2007

Hav Buddi Raj Thapa (No. 5752712Y now JC-623761P), 08 Apr 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

#### SPECIAL LIST

##### THE RAJPUT REGIMENT

To be Subedar Major (Religious Teacher)

Sub Maj (RT) Udit Narayan Mishra (JC-126995F), 01 Apr 2007

Sub Maj (RT) Krishna Nand Parhak (JC-122084N), 01 Apr 2007

To be Subedar (Religious Teacher)

Sub/(RT) Ravindra Prasad (JC-478604Y), 01 May 2007

##### THE PUNJAB REGIMENT

To be Subedar Religious Teachers (Granthi)

Nb Sub/RT (Granthi) Gurjit Singh (JC-428384K), 01 Jul 2006

Nb Sub/RT (Granthi) Madan Singh (JC-428440X), 01 Dec 2006

To be Naib Subedar Religious Teacher (Granthi)

Hav Sarbjit Singh (No. 2481729N now JC-429827M), 11 Jun 2005

L Nk Sahib Singh (No. 15385947P now JC-429828P), 11 Jun 2005

RRT/(Granthi) Harwinder Singh (JC-429944X), 12 May 2006

RRT/(Granthi) Swarandeep Singh (JC-429945A), 12 May 2006

To be Naib Subedar Religious Teacher (Pandit)

RRT (Pandit) Parveen Sharma (JC-429787W), 20 Aug 2005

#### JAK RIF

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Pandit Deepak Kumar Pathak (No. 580382H now JC-580382H), 07 Apr 2007

S ASHRAF,  
Under Secy.

No. 466, dated 28th August 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

##### (ARMY MEDICAL CORPS)

Col (TS) to be Col (Selection)

AP Mohanty (MR-04073K), 04 Oct 2006 with notional seniority without effect on pay and pension from 25 Aug 2005.

Capt to be Major

Rohit Tandon (MR-08460W), AMC, 07 Apr 2007

Satyabrato Chatterjee (MR-08306X), AMC, 17 Feb 2007

Dhanalakshmi B (MR-083003K), AMC, 17 Mar 2007

Sheel Kumar Mishra (MR-08111M), AMC, 17 Apr 2006

Mrs Shabeena Tawar (MS-14359M) (MR-08407L), AMC, 28 Feb 2006.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 11 Nov 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt to be Major

Ashish Tawar (MS-14398L) (MR-08289H), AMC, 27 Feb 2006

Surg Lt. To be Surg Lt CDR

Smita Dutta (MS-14577L) (MR-08444Y), (75815F), AMC, 11 Mar 2004

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

SQN LDR To be WG CDR

R. Sreenath (MR-06584M) (AF-22488), AMC, 16 Dec 2004

Mrs Pauline Babu (MR-06599P) (AF-22505), AMC, 16 Dec 2004

V Kulshrestha (MR-06504K) (AF-22349), AMC, 16 Dec 2004

Akhilesh Goyal (MR-07058A) (AF-22474), AMC,  
16 Dec 2004

Sunil Kumar Sinha (MR-07060X) (AF-23069F), AMC,  
22 Jan 2005

P. Kinra (MR-06735A) (AF-23411H), AMC, 04 Jan 2007

P. Ravi Raghavan (MR-06736A) (AF-23412L), AMC,  
04 Jan 2007

Geeta Gupta (MR-07456F) (AF-23488L), AMC, 28 Mar  
2007

Flt Lt to be Sqn Ldr

Harvinder Pal Singh Sahota (MR-08332Y) (AF-26922),  
AMC, 07 Jan 2007

Raj Mohan (MR-07693L) (AF-26907), AMC, 04 Mar 2007

Sunita Desairo Patil (MR-08385X) (AF-26935), AMC,  
16 Apr 2007

Mohammed Mahaboob Asha S (MS-14381X),  
(MR-08456N) (AF-26500N), AMC, 21 Jan 2006.

(MoD Notification published in the Gazette of India  
dated 11 Nov 2006 in so far as it relates to the officer is  
hereby cancelled)

Sqn Ldr Madhu G (MR-08411N) (AF-26501S), 21 Jan  
2006.

(MoD Notification published to the Gazette of India  
dated 11 Nov 2006 in so far as it relates to the officer is  
hereby cancelled)

G. RAVINDRANATH,  
Brig. Dy. DGAFMS (Pers)

No. 467, dated 27th August 2007—The President is  
pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

IC No., Name and Arm

64971, Abhishek Singh, AC

64972, Narayan Singh Bhati, Inf

64973, Rajesh Dogra, Inf

64974, Rajneesh Kumar, AD Arty

64975, Atique Ahmed Mohd Kasim Siddiqui, Arty

64976, H Sabarinath, Inf

64977, Manish Thakur, Sigs

64978, Arun Kumar Chaubey, EME

64979, Tarveni Parshad Sharma, Inf

64980, K Purna Chandra Rao, ENGRS

64981, Girish Awasthy, Mech Inf

64982, Sumit Sabharwal, Arty

64985, Parveen Kumar, Inf

64987, Gorakh Singh Senger, Inf

64988, Sunil Kumar, AC

64990, Vivek Singh Chaundawat, Inf

64992, Jaidev Singh Guleria, Arty

64993, Gurinder Pal Singh Amole, Arty

64994, Shashi Bhushan Jat, Ad Arty

64995, Shailendra Kumar Singh, Inf

64996, Deepak Kumar Singh Mehra, Ad Arty

64997, Sandeep Duggal, AC

64998, Adwitiya Kumar Sinha, ASC

64999, Vishal Rana, Inf

65000, Debaraj Bhattacharya, Inf

65001, Alok Shukla, Arty

65002 Gagan Malhotra, Arty

65004, Pawan Singh, EME

65005, Anuj Sudan, AC

65006, Samir Bharti, Inf

65007, Gulrez Hasan, Arty

65008, Ashish Khanna, Inf

65010, Sanjay Yadav, Arty

65011, Vikas, Inf

65012, Dileep R, EME

65014, V Sivaraman, Engrs

65015, Subhash Singh Chauhan, Inf

65016, Sambit Kumar Sahu, Arty

65017, Anirban Bhowmick, Inf

65018, Harsh Vardhan Singh Rathore, AOC

65019, Deep Singh Bhinder, AC

65020, Jaswinder Singh Koura, Arty

65021, Ashok Kumar Misra, Inf

65022, Dinesh Singh Tanwer, Inf

65023, Indrajit Ghosh, Inf

65024, Narendra Singh Shekhawat, Engrs

65025, Saurabh Sharma, Arty

65026, Sameer Awasthi, Arty	65070, Javed Abdi, Arty
65027, Vijay Singh, Inf	65071, Ravi Ji Raina, Arty
65029, Amit Kandari, Inf	65072, Shravan Kumar Agrawal, Inf
65031, Ashwini Kumar Lal, Engrs	65073, Gurumayum Ranjit Sharma, Inf
65032, Pradeep Sharma, Engrs	65074, Vijay Abraham Thampy, Engrs
65033, Shailesh Satyarthi, Arty	65076, Shalabh Chaudhary, Inf
65034, Deepak Choudhary, AD Arty	65077, Mahavir Singh, Arty
65035, Shailesh P Rao, Inf	65078, Anubhav Gairola, AC
65036, Taqueer Muntakhab, Inf	65079, Amit Gupta, Arty
65037, Vishal Diddi, Inf	65080, Vikrant, AOC
65038, Sukhdeep Singh, Inf	65081, Disouza George Rujay, Inf
65039, Naresh Parashar, AD Arty	65082, Arun Kumar Dutta, Engrs
65040, Prasenjit Basu, Inf	65083, Manish Mohan Sinha, ASC
65041, Neelgagan Singh Kathuria, Mech Inf	65086, Nisheeth Thapliyal, Inf
65042, Shauoor Anjum, EME	65087, Ashish Chauhan, Engrs
65043, Surya Prakash, Arty	65088, J Sherry, Engrs
65044, Pankaj Rawat, Engrs	65089, Samrat Nagar, Mech Inf
65045, Jagdeep Singh, Inf	65091, Sameer Soman, Arty
65046, Ashish Hansen, Inf	65092, Gegen Vaiphei, Inf
65048, Narender Prasad, Inf	65093, Ravi Raja, Inf
65050, Kishan Singh Mehra, Arty	65094, Abhimanyu Singh, Inf
65051, Harold Thomas, Arty	65096, Shalya Chaudhary, Inf
65052, Amarpreet Singh, Arty	65098, Bhupinder Singh Sandhu, Inf
65053, Rahul Nanjappa, Inf	65099, P Pramoth, Arty
65054, Dubash Firdosh Pervez, Inf	65100, Alok Kumar Sinha, Inf
65055, Joginder Pal Singh, Inf	65101, Saurabh Khanna, Arty
65057, Namit Minocha, Arty	65102, Dhiraj Modgil, Inf
65058, Bhanu Pratap Singh, Inf	65103, Manish Kumar, Inf
65059, Mahendra Singh Dhariwal, Inf	65104, Dinesh Chander Vashista, AOC
65060, Amit Kumar Karnwal, Arty	65105, Amit Awasthi, Inf
65061, Jissanto K, AD Arty	65107, Amit Sharma, Inf
65062, Kashish Wadhwa, Inf	65108, Shaman Kumar, Inf
65063, Jerry Manohar, Inf	65109, Guhanraj K, EME
65064, Rajbir Singh, Inf	65110, Ishan Rajavarapu, Arty
65065, Santosh Kumar Singh, Inf	
65066, Anish Katoch, Arty	
65067, Gurminder Singh, Arty	
65068, Manik Trehan, AC	
65069, Manoj Chaudhary, Inf	

—02 May 2007

SHIV RAM BAIRWA,  
Dy. Dir,  
MS-8C

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 468, dated 28th August 2007—The President is pleased to make Substantive promotion of the following officers:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## To be Substantive Lt General

Rank, Name, IC No., Name, Arm and Date of subs rank

Maj Gen PC Bhardwaj, Vrc SC, VSM (IC-24178), PARA, 30 Jan 2007 with seniority from 01 Oct 2006 without effect on pay and pension.

Maj Gen Sekhon AS, AVSM, YSM (IC-24208), Sikh LI, 01 Nov 2006

Maj Gen Aul AN, UYSM (IC-24255), 3 GR, 01 Nov 2006

Maj Gen BS Nagal, SM (IC-24260), Jat, 17 Dec 2006

Maj Gen Jaswal BS, AVSM, VSM (IC-24584), Jak Rif, 02 Feb 2007

Maj Gen YS Panwar (IC-19401), Sigs, 07 Feb 2007

Maj Gen Gautam Dutt, VSM (IC-23266), Engrs, 07 Feb 2007

Maj Gen HS Sehgal, AVSM (IC-23486), Arty, 18 Apr 2007

## To be Substantive Maj Gen

Brig Bhatnagar Vinay (IC-27205), 5 GR, 11 Sep 2006 with seniority from 01 Sep 2006 without effect on pay and pension

Brig Panjkar PC, VSM (IC-27256), Mech Inf, 11 May 2007 with seniority from 24 Jan 2007 without effect on pay and pension

Brig Pavri SN, YSM (IC-25062), Kumaon, 01 Nov 2006 with seniority from 01 Jun 2005 without effect on pay and pension

Brig RK Sanan (IC-25078), EME, 01 Jan 2007 with seniority from 01 Aug 2005 without effect on pay and pension

Brig AK Singh (IC-25405), 64 CAV, 21 May 2006 with seniority from 01 Sep 2005 without effect on pay and pension

Brig Grewal BS (IC-25473), 4 Horse, 01 Dec 2006 with seniority from 16 Nov 2005 without effect on pay and pension

## To be Substantive Brigadier

Rank, Name, IC No., Name, Arm and Date of subs rank

Col JK Jha (IC-31193), Sigs, 09 Jun 2006 with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension.

Col KS Saini (IC-30347), EME, 02 Jun 2006 with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension.

Col Chadha Sunil (IC-31685), Arty, 01 Jun 2006

Col Rawat Arvind Singh (IC-31793), AOC, 09 Jul 2006

with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension.

Col Verma Ashok Kumar (IC-31895), AAD, 01 Jun 2006

Col Sahel Chhail Bharilal (IC-35401), Engr, 01 Jun 2006

Col Rajan Minocha (IC-35459), EME, 07 Jul 2006 with seniority from 01 Aug 2006 without effect on pay and pension.

Col Krishan Kumar (IC-34037), AOC, 01 Oct 2006 with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension.

Col Saxena RP (IC-34078), EME, 01 Oct 2006 with seniority from 14 Aug 2006 without effect on pay and pension.

Col Chacko IPEP (IC-34080), 64 CAV, 01 Oct 2006 with seniority from 14 Aug 2006 without effect on pay and pension.

Col PC Jagia (IC-35800), EME, 01 Jan 2007 with seniority from 23 Sep 2006 without effect on pay and pension.

Col NK Sharma (IC-35838), EME, 01 Jan 2007 with seniority from 26 Sep 2006 without effect on pay and pension.

N.K. PHUKAN,  
Jt. Dir/MS(X)

## (Army Branch)

No. 469, dated 28th August 2007—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef 18 Jul 2005 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

## (REGULAR ARMY)

## (PERMANENT COMMISSION)

## To be Capt

Capt Ashish Tawar (MS-14398L), (MR-08289H), AMC, 27 Feb 2002

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 12 Apr 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

## To be Surg Lt

Surg Lt Smita Dutta (MS-14577L), (MR-08444Y), (75815F), AMC, 11 Mar 2003 with seniority for pay and promotion wef 11 Mar 2000 [this includes 36 months antedate for M.D. (Anaesthesiology) which will not count for gratuity]

(MoD notification published in the Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef 15 Jun 2006 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)  
(PERMENANT COMMISSION)

To be Surg Lt

Surg Lt Ajay Sharma (MS-14754A), (MR-08467A),  
(Navy-75836B) AMC, 17 Feb 2004

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Surg Lt Brijesh Kumar Soni (MS-14673A), (MR-08464M)  
(Navy-75825B), AMC, 28 Nov 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Surg Lt Bharat Khemji Jani (MS-14683K), (MR-08465P)  
(Navy-75827H), AMC, 06 Dec 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef 04 Dec 2006 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)  
(PERMENANT COMMISSION)

To be Surg Lt.

Surg Lt Smriti Mathur (MS-14847P), (MR-08482K)  
(Navy-75851N), AMC, 27 Jul 2004.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Surg Lt Ajay Nathan (MS-14814K), (MR-08480K)  
(Navy-75830R), AMC, 05 Jan 2004

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt.

Flt Lt Mohammed Mahaboob Pasha S (MS-14381X),  
(MR-08456N) (AF-26500N), AMC, 21 Jan 2005.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Jul 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Flt Lt to be Sq. Ldr.

Yateendra Dinker (MS-14659N), (MR-08475Y)  
(AF-26929G), AMC, 13 Jan 2007

To be Flt Lt

Flt Lt Yateendra Dinker (MS-14659N), (MR-08475Y)  
(AF-26929G), AMC, 13 Jan 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 25 Dec 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

G. RAVINDRANATH  
Brig.  
Dy. DGAFMS (Pers)